

android™

त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका

हिन्दी

Android 6.0, Marshmallow

Google, Android, Gmail, Google मानचित्र, Chrome, Android Wear, Nexus, Google Play, YouTube, Hangouts तथा अन्य ट्रेडमार्क Google Inc. की संपत्ति हैं।

Google ट्रेडमार्क की एक सूची

<http://www.Google.com/permissions/trademark/our-trademarks.html> पर उपलब्ध है। अन्य सभी चिह्न और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं।

यह पुस्तक Nexus और Android One डिवाइसों के लिए, Android 6.0, Marshmallow का परिचय कराती है। इसकी सामग्री, कुछ वर्णित उत्पादों या उन पर चलने वाले सॉफ़्टवेयर के विवरणों से भिन्न हो सकती है। यहां प्रदान की गई सभी जानकारी बिना सूचना के बदली जा सकती है।

श्रेष्ठ परिणामों के लिए, सुनिश्चित करें कि आप नवीनतम Android सिस्टम अपडेट चला रहे हैं। अपने डिवाइस की वर्शन संख्या पता करने या सिस्टम की नवीनतम जानकारी जांचने के लिए, **सेटिंग > सिस्टम > फ़ोन के बारे में** या **टैबलेट के बारे में** पर जाएं और **Android वर्शन** या **सिस्टम की नई जानकारी** खोजें।

यदि आपके पास Android One फ़ोन या टैबलेट की ऐक्सेस नहीं है और आप किसी अन्य डिवाइस पर Android 6.0 चला रहे हैं, तो इस पुस्तक में वर्णित सिस्टम के कुछ विवरणों में अंतर हो सकता है।

इस पुस्तक में वर्णित सॉफ़्टवेयर चला रहे Nexus हार्डवेयर के बारे में विवरण सहित, व्यापक ऑनलाइन सहायता और समर्थन के लिए तथा अन्य Android डिवाइसों के बारे में जानकारी के लिंक के लिए, support.Google.com/Android पर जाएं।

सामग्री तालिका

1 Android में आपका स्वागत है

Android 6.0, Marshmallow के बारे में

6.0 में नया क्या है

प्रारंभ करना

अपने Google खाते में प्रवेश करना

लेख संदेश (SMS) भेजना

फ़ोन कॉल करना

ईमेल भेजना

फ़ोटो लेना

तेज़ सेटिंग

आपके ऐप्स

आपकी होम स्क्रीन

स्थिति बार

मार्गदर्शक की मूल बातें

बैटरी का जीवनकाल प्रबंधित करना

सहायता और फ़ीडबैक

2 अपना डिवाइस वैयक्तिकृत करना

अपनी होम स्क्रीन कस्टमाइज़ करना

अपनी सेटिंग प्रबंधित करना

प्रदर्शन

ध्वनि और नोटिफिकेशन

अपनी स्क्रीन पिन करना

Google नाओ

यह कैसे काम करता है

आप Google से अपने लिए क्या-क्या करने के लिए कह सकते हैं
“Ok Google” चालू या बंद करना
टैप पर नाओ

3 कीबोर्ड का उपयोग करना

लेख डालना और संपादित करना

हावभाव लेखन

कीबोर्ड शब्दकोश

बोलकर लिखना

4 ऐक्सेस नियंत्रित करना

अपने डिवाइस पर खाते प्रबंधित करना

कोई खाता जोड़ना

कोई खाता निकालना

अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ अपना डिवाइस साझा करना

उपयोगकर्ताओं को स्विच करना

किसी उपयोगकर्ता को निकालना

अतिथि उपयोगकर्ता

सुरक्षा

Smart Lock

चेहरे की पहचान

पहनने पर पहचान

विश्वसनीय स्थान

विश्वसनीय आवाज़

Nexus Imprint

हानिकारक ऐप्स से सुरक्षा करना

Android डिवाइस प्रबंधक

बैकअप लेना और रीसेट करना

अपने फ़ोन से भुगतान करना

5 अपने डिवाइस पर सामग्री साझा करना और संग्रहीत करना

Android Beam

Google Cast

फ़ाइल मेमोरी

SD कार्ड मेमोरी

ड्यूअल-SIM कार्ड समर्थन

स्क्रीनशॉट

प्रिंट करना

6 कुछ ऐप्स आजमाएं

Play स्टोर

Gmail

कैमरा

फ़ोटो

संपर्क

Hangouts

कैलेंडर

FM रेडियो

7 सरल उपयोग

8 घड़ियों, टीवी और कारों में उपलब्ध Android

Android Wear

Android TV

Android Auto

1

Android में आपका स्वागत है

Android 6.0, Marshmallow के बारे में

Marshmallow फ़ोन, टैबलेट, घड़ियों, टीवी, कार आदि को शक्ति प्रदान करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम Android का नवीनतम वर्शन है।

यह पुस्तक आपके Nexus या Android One फ़ोन अथवा टैबलेट पर Android 6.0 सॉफ़्टवेयर का परिचय कराती है। हार्डवेयर संबंधी विवरणों के लिए, support.google.com/Android पर जाएं। वहां, आपको Nexus डिवाइसों तथा Android के अन्य वर्शन के बारे में अधिक विवरण सहित, सभी प्रकार के Android फ़ोन और टैबलेट के बारे में व्यापक जानकारी मिल सकती है।

iPhone या iPad (iOS) से Android पर स्विच कर रहे हैं? तो अपने ऐप्स आदि को अपने Android डिवाइस पर ले जाने के बारे में उपयोगी टिप्स के लिए [Android पर स्विच करना](#) देखें।

6.0 में नया क्या है

Marshmallow में नई सुविधाएं और अपडेट शामिल किए गए हैं जिनसे आपका डिवाइस बेहतर काम करता है:

- अपनी फ़ोटो में कुछ भी खोजें और निःशुल्क, असीमित फ़ोटो मेमोरी का उपयोग करें
- बाधाओं को प्रबंधित करने के आसान तरीके
- कुछ डिवाइसों पर SD कार्ड के द्वारा मेमोरी स्थान बढ़ाने की क्षमता
- टैप पर Now: आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है उससे संबंधित Google नाओं के सुझाव (कुछ ही स्थानों में उपलब्ध)
- Doze, ऐप स्टैंडबाय और अन्य बैटरी ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ देर तक चलने वाली बैटरी

प्रारंभ करना

जब आप पहली बार अपना फ़ोन या टैबलेट चालू करते हैं, तो आपको स्वागत स्क्रीन दिखाई देगी. अपनी इच्छित भाषा चुनें और जारी रखने के लिए तीर को स्पर्श करें.

महत्वपूर्ण: सेटअप प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, वाइ-फ़ाई कनेक्शन होना सबसे अच्छा है.

अपने Google खाते में प्रवेश करना

संकेत किए जाने पर, अपने Google खाते से प्रवेश करें या एक खाता बनाएं. प्रवेश करने से आपको तुरंत अपने Google खाते से जुड़े सब कुछ जैसे की Gmail और कैलेंडर तक की पहुंच प्राप्त होगी.

टिप्स: यदि आपके पास कोई अन्य Android डिवाइस है, तो टैप करें और आगे से दो डिवाइसों को एक के पीछे एक पकड़कर और एक डिवाइस को दूसरे पर धीरे-धीरे ऊपर और नीचे स्लाइड करके तुरंत एक नया डिवाइस सेट कर सकते हैं. पहले से बैकअप ले लिए गए Google खाते और ऐप्स नए डिवाइस पर अपने आप कॉपी कर दिए जाएंगे.

निम्नलिखित के लिए उपयोग किए जाने वाले ईमेल पते को Google खाता माना जाता है:

- Gmail
- YouTube
- Google Play
- Google ऐप्स
- AdWords
- कोई अन्य Google उत्पाद

जब आप प्रवेश करते हैं, तो आप Google Play पर खरीदे गए अपने सभी ऐप्स अपने नए डिवाइस पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. सभी ईमेल, संपर्क, कैलेंडर ईवेंट और उस खाते से संबद्ध अन्य डेटा आपके डिवाइस से स्वचालित रूप से सिंक हो जाते हैं.


उदाहरण के लिए यदि आप अपने फ़ोन पर किसी मित्र का फ़ोन नंबर बदलते हैं, तो वह बदलाव आपके टैबलेट पर और उन सभी अन्य कंप्यूटर पर भी दिखाई देता है जिन पर आपने अपने Google खाते में प्रवेश किया है।

महत्वपूर्ण: सुनिश्चित करें कि आपको वह पासवर्ड याद रहे जिसका उपयोग आप अपने डिवाइस में प्रवेश करने के लिए करते हैं अन्यथा आप उसे ऐक्सेस नहीं कर पाएंगे। भले ही आप फ़ैक्टरी रीसेट कर दें, फिर भी आपको इस डिवाइस में प्रवेश करने के लिए उपयोग किया गया पासवर्ड डालना आवश्यक होना।

एकाधिक Google खाते हैं? तो आप बाद में **सेटिंग** ⚙️ > **व्यक्तिगत** > **खाते** से अन्य खातों को जोड़ सकते हैं। आप **सेटिंग** ⚙️ > **डिवाइस** > **उपयोगकर्ता** में अतिथि उपयोगकर्ता भी जोड़ सकते हैं।

लेख संदेश (SMS) भेजना

अधिकांश Nexus डिवाइसों से SMS भेजने के लिए:

1. अपनी होम स्क्रीन पर **मैसेंजर**  स्पर्श करें।
2. गया संदेश बनाने के लिए **+** स्पर्श करें।
3. स्क्रीन के शीर्ष पर, फ़ोन नंबर या संपर्क का नाम डालें, अपना संदेश लिखें, फिर **➤** स्पर्श करें।

आप Hangouts का भी उपयोग कर सकते हैं, जो अधिकांश Nexus फ़ोन पर डिफ़ॉल्ट SMS ऐप है।

अपने डिफ़ॉल्ट संदेश सेवा ऐप को बदलने के लिए, संदेश सेवा के लिए उपयोग किया जाने वाला ऐप खोलें और सेटिंग में उस ऐप के लिए अपनी प्राथमिकताएं बदलें।

अधिक विवरण के लिए, संदेश भेजें या उसे प्रतिसाद दें पर जाएं।



फ़ोन कॉल करना





Nexus फ़ोन का उपयोग करके, आप फ़ोन ऐप, संपर्क ऐप या संपर्क जानकारी दिखाने वाले अन्य ऐप्स या विजेट से कॉल कर सकते हैं। जहां भी आपको फ़ोन नंबर दिखाई दे, आप डायल करने के लिए आमतौर पर

उसे स्पर्श कर सकते हैं।



आपके संपर्कों में से किसी को कॉल करने के लिए:

1. किसी होम या सभी ऐप्स  स्क्रीन पर फ़ोन  स्पर्श करें।
2. कॉल करने के लिए किसी व्यक्ति को चुनने के लिए स्क्रॉल करें या खोजें। यदि सामने कीपैड हो, तो उसे नीचे करने के लिए वापस जाएं बटन स्पर्श करें।
3. कॉल करने के लिए संपर्क नाम स्पर्श करें।

हाल ही के कॉल देखने के लिए, हाल ही के  टैब स्पर्श करें। कीपैड का उपयोग करने के लिए, कीपैड  बटन स्पर्श करें।

टिप्स: Google द्वारा कॉलर ID इनबाउंड और आउटबाउंड नंबरों की पहचान करती है, यहां तक कि ऐसे कॉलर की भी, जिन्हें आपने संपर्क ऐप में नहीं सहेजा है।


अधिक विवरण के लिए, अपने फ़ोन का उपयोग करना पर जाएं।

वीडियो कॉल भेजने या प्राप्त करने के लिए, आप Hangouts ऐप का उपयोग कर सकते हैं। उसे खोलने के लिए,  किसी होम या सभी ऐप्स  स्क्रीन पर Hangouts स्पर्श करें। अधिक विवरण के लिए, Hangouts का उपयोग करें देखें।

ईमेल भेजना




अपने Gmail खाते या अन्य ईमेल पतों से ईमेल लिखने और पढ़ने के लिए Gmail ऐप का उपयोग करें।

1. किसी होम या सभी ऐप्स  स्क्रीन पर Gmail स्पर्श करें।
2. यदि आपने सेटअप के दौरान किसी Gmail खाते में पहले से प्रवेश किया हुआ है, तो आपका ईमेल आपके डिवाइस से समन्वयित किया जाएगा। अन्यथा, अभी अपना ईमेल पता जोड़ें।

अधिक विवरण के लिए, Gmail का उपयोग करना देखें।

फ़ोटो लेना

फ़ोटो लेने के लिए:








1. कैमरा  खोलें.
2. अपने चित्र को फ़्रेम करें.
3. चित्र लेने के लिए चित्र क्षेत्र के नीचे वाला कैप्चर करें आइकन स्पर्श करें.


अभी-अभी ली गई फ़ोटो देखने के लिए, किसी Android One या पुराने Nexus फ़ोन पर दाएं से बाएं स्वाइप करें. Nexus 5x और Nexus 6P पर, कैप्चर बटन के नीचे दाईं ओर दिखाई देने वाली फ़ोटो का गोलाकार पूर्वावलोकन स्पर्श करें.

अधिक विवरण के लिए, कैमरे का उपयोग करना देखें.

तेज़ सेटिंग


वाई-फ़ाई जैसी अक्सर उपयोग की जाने वाली सेटिंग आसानी से बदलने के लिए तेज़ सेटिंग का उपयोग करें. तेज़ सेटिंग खोलने के लिए, दो अंगुलियों से स्क्रीन के शीर्ष से नीचे की ओर स्वाइप करें. सेटिंग बदलने के लिए बस आइकन स्पर्श करें:

- **प्रदर्शन स्क्रीन की रोशनी:** अपनी स्क्रीन पर रोशनी को कम करने या बढ़ाने के लिए  को स्लाइड करें.
- **वाई-फ़ाई नेटवर्क:** वाई-फ़ाई  को चालू या बंद करें अथवा वाई-फ़ाई सेटिंग मेनू खोलें.
- **ब्लूटूथ सेटिंग:** ब्लूटूथ  को चालू या बंद करें अथवा ब्लूटूथ सेटिंग मेनू खोलें.
- **परेशान ना करें:** परेशान ना करें  को चालू या बंद करें अथवा संबंधित सेटिंग खोलें. परेशान ना करें सेटिंग आपके डिवाइस को मौन कर देती है जिससे वह आपकी इच्छित समय पर ध्वनि नहीं करता या कंपन नहीं करता.
- **सेल्युलर डेटा:** सेल्युलर डेटा उपयोग देखने और उसे चालू या बंद करने के लिए  स्पर्श करें.
- **हवाई जहाज़ मोड:** हवाई जहाज़ मोड  चालू या बंद करें. हवाई जहाज़ मोड का अर्थ है कि आपका फ़ोन किसी वाई-फ़ाई या सेल सिग्नल से कनेक्ट नहीं होगा भले ही वह उपलब्ध हो.
- **स्वतः घुमाना:** अपने डिवाइस का अभिविन्यास  पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में लॉक करें.

- **फ़्लैशलाइट:** फ़्लैशलाइट  चालू या बंद करें.


Nexus 5x पर, तेज़ सेटिंग इस तरह दिखाई देती हैं:



शीर्ष दाईं ओर **सेटिंग**  स्पर्श करके मुख्य सेटिंग मेनू खोलें.

आपके ऐप्स

अपने सभी ऐप्स देखने के लिए, किसी भी होम स्क्रीन पर पसंदीदा ट्रे में



●●●● स्पर्श करें.

यही वह स्थान है जहां आप अपने सभी ऐप्स देख सकते हैं, जिनमें आपके फ़ोन या टैबलेट के साथ आगे वाले तथा आपके द्वारा Google Play पर डाउनलोड किए गए ऐप्स भी शामिल होते हैं. आप अपनी किसी भी होम स्क्रीन पर ऐप्लिकेशन आइकन ले जा सकते हैं.

आपके द्वारा सबसे हाल ही में उपयोग किए गए ऐप्स पहली पंक्ति में दिखाई देते हैं.

सभी ऐप्स से, आप:

ऐप्लिकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं. सभी ऐप्स स्क्रीन से ऊपर और नीचे (किसी फ़ोन पर) या बाएं और दाएं (किसी टैबलेट पर) स्वाइप कर सकते हैं

- **कोई ऐप खोल सकते हैं.** उसका आइकन स्पर्श कर सकते हैं.
- **ऐप्स खोज सकते हैं.** आप जो ऐप खोज रहे हैं उसका नाम ऐप्स खोजें... बार में डालें.
- **किसी ऐप आइकन को होम स्क्रीन पर रख सकते हैं.** ऐप आइकन को स्पर्श करके रखें, अपनी अंगुली स्लाइड करें और आइकन को अपनी इच्छित होम स्क्रीन पर छोड़ने के लिए अपनी अंगुली हटा लें.
- **अधिक ऐप्स प्राप्त कर सकते हैं.** ऐप आइकन की सूची में Google Play ▶ स्पर्श करें.

सभी ऐप्स स्क्रीन से किसी ऐप के बारे में जानकारी देखने के लिए, उसे स्पर्श करके रखें, अपनी अंगुली को स्क्रीन के शीर्ष की ओर स्लाइड करें और ऐप को ऐप जानकारी + पर छोड़ दें.



टिप्स: कुछ ऐप्स आपके डेटा को या आपके डिवाइस को हानि पहुंचा सकते हैं.

हालांकि, आपको Nexus डिवाइसों के लिए एंटी-वायरस इंस्टॉल करने या खरीदने की आवश्यकता नहीं है. Google हानिकारक ऐप्स की पहचान करने और आपको उनके बारे में चेतावनी देने के लिए आपके ऐप्स की लगातार जांच करता रहता है.

अधिक विवरण के लिए, हानिकारक ऐप्स से सुरक्षा करना देखें.

आपकी होम स्क्रीन

अपने डिवाइस को सेट कर लेने के बाद, मुख्य होम स्क्रीन पहली बार दिखाई देती है। यहां, आप ऐप आइकन और विजेट (किसी ऐप की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का “एक नज़र में” दृश्य) को अपनी होम स्क्रीन में जोड़ सकते हैं।

- होम स्क्रीन के बीच आगे-जाने के लिए बाईं या दाईं ओर स्वाइप करें।
- नोटिफिकेशन देखने के लिए एक अंगुली से स्क्रीन के शीर्ष भाग से नीचे की ओर स्वाइप करें।
- त्वरित सेटिंग—अक्सर उपयोग की जाने वाली सेटिंग—खोलने के लिए स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग से नीचे की ओर एक अंगुली से दो बार स्वाइप करें या दो अंगुलियों से एक बार स्वाइप करें। तेज़ सेटिंग देखें।
- सेटिंग  खोलने के लिए, किसी भी स्क्रीन के शीर्ष से दो अंगुलियों से नीचे स्वाइप करें, फिर शीर्ष दाईं ओर सेटिंग आइकन  स्पर्श करें।
- होम स्क्रीन से, स्क्रीन के शीर्ष पर Google स्पर्श करें या खोजने, संदेश भेजने, दिशानिर्देश मांगने या अन्य निर्देश देने के लिए “Ok Google” बोलें।

स्थिति बार

स्थिति बार स्क्रीन के सबसे ऊपर स्थित होता है। दाईं ओर आप वाई-फ़ाई और मोबाइल सिग्नल शक्ति, शेष बैटरी पावर और समय देख सकते हैं। बाईं ओर, आप यह देख सकते हैं कि किन ऐप्स ने आपको नोटिफिकेशन भेजा है। ध्वनि और नोटिफिकेशन देखें।

मार्गदर्शक की मूल बातें

अपने डिवाइस की स्क्रीन के नीचे, आपको इन तीन बटनों के साथ एक मार्गदर्शक बार मिलेगा:



वापस जाएं


पिछली स्क्रीन खोलता है जिसमें आप काम कर रहे थे, भले ही वह किसी भिन्न ऐप में क्यों ना हो। होम स्क्रीन तक वापस चले जाने के बाद, आप उससे पीछे नहीं जा सकते हैं।

होम

होम स्क्रीन पर वापस लौटाता है। आप वर्तमान में जो स्क्रीन देख रहे हैं उस पर आधारित सुझाव प्राप्त करने के लिए, यह बटन स्पर्श करके रखें।



अधिक जानकारी के लिए, [टैप पर Now](#) देखें.




अवलोकन




आपने हाल ही में जिन स्क्रीन पर काम किया है उनके थंबनेल चित्रों की सूची खोलता है. किसी एक को खोलने के लिए, उसे स्पर्श करें. सूची में से स्क्रीन को निकालने के लिए, उसे बाएं या दाएं स्वाइप करें या X स्पर्श करें.

कुछ ऐप्स इन बटनों को अस्थायी रूप से छिपा देते हैं या उसी स्थिति में छोटे डॉट के रूप में फ़ेड कर देते हैं. उन्हें वापस लाने के लिए, डॉट स्पर्श करें स्क्रीन के बीच के भाग को स्पर्श करें या नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करें.

ऐप्स और सेटिंग की कई स्क्रीन में स्क्रीन के शीर्ष दाईं ओर एक **मेनू** : आइकन होता है. सहायता और फ़ीडबैक सहित, अतिरिक्त विकल्प एक्सप्लोर करने के लिए उसे स्पर्श करें.

बैटरी का जीवनकाल प्रबंधित करना

स्थिति बार यह दिखाता है कि आपके पास कितनी बैटरी शेष है लेकिन आप शेष बैटरी जीवनकाल का सटीक प्रतिशत और अनुमानित समय भी देख सकते हैं. स्क्रीन के शीर्ष से नीचे की ओर स्वाइप करें, स्थिति बार स्पर्श करें, फिर बैटरी  स्पर्श करें.

आपके डिवाइस की बैटरी दिनभर चलने के लिए बनाई गई है. जब आपकी बैटरी का पावर कम हो रहा हो, तो Android का बैटरी बचतकर्ता आपकी बैटरी का पावर बचाता है ताकि आप तभी भी कॉल कर सकें और SMS संदेश भेज सकें. बैटरी सेवर को चालू करने या उसे अपने आप चालू होने हेतु सेट करने के लिए, सेटिंग  > डिवाइस > बैटरी  > मेनू  > बैटरी सेवर पर जाएं.

Android Marshmallow में ऐसे कई अन्य स्वचालित बैटरी ऑप्टिमाइज़ेशन हैं जो आमतौर पर प्रभावी होते हैं. इनमें शामिल हैं:



- आपका डिवाइस उपयोग में ना होने, चार्ज ना होने और उसमें कोई हलचल ना होने पर Doze बैटरी का उपयोग कम कर देता है.
- App Standby, Android को बैटरी का उपयोग करने वाली ऐप्स की ऐसी

गतिविधियों को कम करता है जिन्हें आपने लंबे समय से उपयोग नहीं किया है (जब आपका डिवाइस चार्ज ना हो रहा हो).


Doze और App Standby की अलग-अलग सेटिंग नहीं होती हैं. उन कई बैटरी ऑप्टिमाइज़ेशन में से ऐसे दो हैं जो अधिकांश परिस्थितियों में डिफ़ॉल्ट रूप से प्रभावी होते हैं. हालांकि, आप किसी एक ऐप के लिए सभी बैटरी ऑप्टिमाइज़ेशन बंद कर सकते हैं, उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह हमेशा उच्चतम प्रदर्शन पर काम करता रहे, भले ही आप उसका उपयोग ना कर रहे हों.

अधिक जानकारी के लिए, बैटरी जीवनकाल प्रबंधित करें पर जाएं.

सहायता और फ़ीडबैक

अधिकांश Google ऐप्स में, आप मुख्य मेनू  से सहायता और फ़ीडबैक पर जा सकते हैं. अन्य ऐप्स में ऐसा मेनू  आइकन हो सकता है जिसमें सहायता और फ़ीडबैक शामिल हो.

यह पुस्तक Android 6.0 के साथ आगे वाली मुख्य सुविधाओं और ऐप्स में से कुछ का ही परिचय कराता है. Google Play पर उपलब्ध Android सॉफ़्टवेयर और ऐप्स, Nexus डिवाइसों के बारे में अधिक विवरण के लिए और सभी प्रकार की सहायता के लिए, support.Google.com/Nexus पर जाएं.

Google आपसे आपके Nexus डिवाइस के बारे में भी फ़ीडबैक आमंत्रित करता है. फ़ीडबैक भेजना आसान है. बस **सेटिंग  > सिस्टम > फ़ोन के बारे में (या टैबलेट के बारे में) > इस डिवाइस के बारे में** फ़ीडबैक भेजें पर जाएं.


2

अपना डिवाइस वैयक्तिकृत करना

अपनी होम स्क्रीन कस्टमाइज़ करना


अपनी होम स्क्रीन को घर जैसा बनाएं. आप वॉलपेपर बदल सकते हैं, ऐप्स और विजेट जोड़ सकते हैं या दाईं ओर अतिरिक्त होम स्क्रीन जोड़ सकते हैं.

अपना वॉलपेपर बदलने के लिए:


1. पृष्ठभूमि को स्पर्श करके रखें, फिर वॉलपेपर  स्पर्श करें.
2. वॉलपेपर चित्र चुनने के लिए दाएं से बाएं स्वाइप करें. या अपनी फ़ोटो, डाउनलोड या डिस्क से कोई चित्र चुनें.

कोई अन्य होम स्क्रीन जोड़ने के लिए सबसे दाईं ओर की स्क्रीन पर स्वाइप करें और किसी ऐप या विजेट को दाएं किनारे पर खींचें. (मुख्य होम स्क्रीन के बाईं ओर वाली स्क्रीन Google नाओ के लिए आरक्षित है.)

होम स्क्रीन पर ऐप आइकन जोड़ने के लिए:

1. होम स्क्रीन पर उस स्थान पर जाएं जहां आप ऐप को रखना चाहते हैं.
2. सभी ऐप्स  स्पर्श करें.
3. अपना इच्छित ऐप ढूंढने के लिए नीचे स्वाइप करें (फ़ोन पर) या बाएं से दाएं स्वाइप करें (Android One और टैबलेट पर).
4. होम स्क्रीन दिखाई देने तक ऐप को स्पर्श करके रखें उसे उस स्थान पर स्लाइड करें और अपनी अंगुली उठाएं.

एक विजेट आपकी होम स्क्रीन पर मौजूद ऐप के बारे में जानकारी का त्वरित दृश्य या उसे ऐक्सेस करने का तरीका प्रदान करता है, जैसे बड़े आकार की घड़ी या आपकी Google Play लाइब्रेरी में पुस्तकों, संगीत या फ़िल्मों का दृश्य. कोई विजेट जोड़ने के लिए:

1. पृष्ठभूमि को स्पर्श करके रखें, फिर विजेट  स्पर्श करें.

2. उपलब्ध विजेट एक्सप्लोर करने के लिए नीचे स्वाइप करें.


किसी ऐप या विजेट को अन्य स्थिति पर ले जाने के लिए:

1. आइकन स्पर्श करके रखें.
2. अपनी अंगुली नए स्थान पर स्लाइड करें.
होम स्क्रीन के बीच आने-जाने के लिए, स्क्रीन के किनारे की ओर स्लाइड करें.
किसी अन्य आइकन में जाने के लिए, उसमें अपनी अंगुली धीरे से स्लाइड करें.
3. अपनी अंगुली उठाएं.

किसी ऐप आइकन को अपने डिवाइस से स्थायी रूप से निकाले बिना उसे होम स्क्रीन से निकालने के लिए, उसे स्पर्श करके रखें, अपनी अंगुली स्क्रीन के शीर्ष की ओर ले जाएं और शीर्ष बाईं ओर निकालें **X** पर छोड़ दें.

किसी आइकन को अपने डिवाइस से स्थायी रूप से अनइंस्टॉल करने के लिए, उसे स्पर्श करके रखें, अपनी अंगुली स्क्रीन के शीर्ष की ओर स्लाइड करें और ऐप को शीर्ष दाईं ओर अनइंस्टॉल आइकन **■** पर छोड़ दें. (यह सभी ऐप्स के लिए लागू नहीं होता है.)

हर होम स्क्रीन के निचले भाग में पसंदीदा ट्रे दिखाई देता है: यह आपके ऐप्स पर पहुंचने का दूसरा त्वरित तरीका है.



किसी ऐप को पसंदीदा ट्रे के अंदर या बाहर या होम स्क्रीन पर किसी अन्य स्थान पर खींचने के लिए उसे स्पर्श करें और दबाए रखें फिर उसे अपनी अंगुली से उस स्थान पर ले जाएं जहां आप उसे चाहते हैं.


सभी ऐप्स के शीर्ष पर आपको ऐप सुझाव दिखाई देंगे: उन ऐप्स के लिए सुझाव जिन्हें आप लॉन्च करना चाहेंगे. किसी ऐप को ऐप सुझाव से अपनी होम स्क्रीन पर खींचने के लिए, उसे स्पर्श करके रखें, फिर उसे अपनी अंगुली से अपने इच्छित स्थान पर ले जाएं.

अपनी सेटिंग प्रबंधित करना





सेटिंग, नेटवर्क, हार्डवेयर, स्थान, सुरक्षा, भाषा, खातों आदि के लिए प्रमुख Android सेटिंग को नियंत्रित करती हैं।

आपके द्वारा अक्सर ऐक्सेस की जाने वाली सिस्टम सेटिंग, जैसे कि वाई-फ़ाई या स्क्रीन की रोशनी को एडजस्ट करने का सबसे तेज़ तरीका तेज़ सेटिंग के माध्यम से है। अधिक जानकारी के लिए [तेज़ सेटिंग](#) देखें।


आप स्क्रीन के शीर्ष से नीचे की ओर दो बार स्वाइप करके और  को स्पर्श करके अपने डिवाइस के लिए कई अन्य सेटिंग नियंत्रित कर सकते हैं। ये मुख्य डिवाइस प्रकार या उपलब्ध खाता सेटिंग हैं। संबंधित सहायता लेखों को देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें।


- [वायरलेस और नेटवर्क](#): वाई-फ़ाई, ब्लूटूथ, डेटा उपयोग और संबंधित सेटिंग।
- [डिवाइस](#): ध्वनि, बैटरी, मेमोरी और अन्य प्रदर्शन सेटिंग।
- [स्थान](#)
- [सुरक्षा](#): पासवर्ड और प्रमाणपत्र, स्क्रीन लॉक और ऐप इंस्टॉलेशन संसाधन।
- [खाते](#)
- [Google](#): अपने Google खातों और सेवाओं की प्राथमिकताएं एडजस्ट करें, जिनमें प्रवेश करना और डेटा प्रबंधन भी शामिल हैं
- [भाषा और कीबोर्ड](#)
- [बैकअप और रीसेट विकल्प](#)
- [सिस्टम](#): [दिनांक](#), [समय](#), [सरल उपयोग](#) और [डिवाइस की जानकारी](#)।

अधिकांश ऐप्स में उनकी अपनी सेटिंग भी शामिल होती है, जो आमतौर पर ऐप के ऊपर बाईं ओर स्थिति मेनू  से या **मेनू**  **> सेटिंग** से उपलब्ध होती है।

प्रदर्शन



अपने डिवाइस पर प्रदर्शन सेटिंग बदलने के लिए:

1. **सेटिंग**  **> डिवाइस > प्रदर्शन** पर जाएं।
2. निम्न सेटिंग में से चुनें। इनमें से कुछ सेटिंग डिवाइस तथा Android के वर्शन के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। सभी से बैटरी का जीवनकाल प्रभावित हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए [बैटरी जीवनकाल प्रबंधित करें](#) देखें。
 - **स्क्रीन की रोशनी का स्तर**: अपने डिवाइस पर स्क्रीन की रोशनी का स्तर

एडजस्ट करने के लिए स्लाइडर  को ले जाएं.

- **अनुकूलनीय स्क्रीन की रोशनी:** अपने आस-पास उपलब्ध रोशनी के आधार पर अपने डिवाइस पर स्क्रीन की रोशनी का स्तर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अनुकूलनीय स्क्रीन की रोशनी को चालू करें. स्क्रीन की अनुकूलनीय चमक डिफ़ॉल्ट रूप से चालू रहती है. आवश्यकता होने पर आप स्क्रीन की रोशनी एडजस्ट कर सकते हैं.
- **निष्क्रिय:** यह बदलें कि जब आप अपने डिवाइस का उपयोग नहीं कर रहे होते हैं तो उसकी स्क्रीन को काला होने में कितना समय लगता है. निष्क्रिय सेटिंग के बारे में अधिक जानें.
- **Daydream:** ऐसे स्क्रीनसेवर सेट करें जो आपका डिवाइस चार्ज होते समय या डॉक रहते समय फ़ोटो, रंगीन पृष्ठभूमियां आदि प्रदर्शित करते हैं. Daydream का उपयोग करने के बारे में अधिक जानें.
- **व्यापक प्रदर्शन** (केवल नवीनतम Nexus डिवाइसों पर उपलब्ध): यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा अपने फ़ोन को उठाने पर या कोई नोटिफिकेशन आने पर वह सक्रिय हो जाए तो व्यापक प्रदर्शन चालू करें.

ध्वनि और नोटिफिकेशन

अपने डिवाइस पर ध्वनि और नोटिफिकेशन सेटिंग बदलने के लिए, **सेटिंग**  > **डिवाइस** > **ध्वनि और नोटिफिकेशन**  पर जाएं.

नोटिफिकेशन आपको नए संदेशों के आने, कैलेंडर ईवेंट और अलार्म के साथ-साथ डाउनलोड जैसे चल रहे ईवेंट के लिए सूचित करते हैं.

- **परेशान ना करें.** ये सेटिंग आपको यह नियंत्रित करने देती हैं कि कौन से नोटिफिकेशन दिन के निश्चित समय पर या सप्ताह के अलग-अलग दिनों पर आएँ. आप अपने डिवाइस को इस तरह मौन भी कर सकते हैं जिससे वह आपके इच्छित समय पर ध्वनि या कंपन ना करे. उदाहरण के लिए, आप केवल निकट संपर्कों के कॉल और संदेशों के लिए ही सूचना प्राप्त करेंगे या रात के समय अथवा ईवेंट के दौरान नोटिफिकेशन को अपने आप मौन कर देंगे. अधिक जानकारी के लिए, अपने नोटिफिकेशन सेट करें पर जाएं.
- **जब डिवाइस लॉक किया गया हो.** यह प्रबंधित करें कि क्या आपका फ़ोन लॉक होने पर नोटिफिकेशन देखे जा सकते हैं या क्या किसी नोटिफिकेशन की संवेदनशील सामग्री देखी जा सकती है. संवेदनशील सामग्री में कैलेंडर ईवेंट का विवरण, आपको किसने ईमेल भेजा है या आपके द्वारा डाउनलोड किए गए गीत का शीर्षक, जैसा

विवरण शामिल होता है। अधिक जानकारी के लिए, नोटिफिकेशन सेटिंग प्रबंधित करें पर जाएं।

- **ऐप नोटिफिकेशन.** Gmail जैसे ऐप्स की नोटिफिकेशन सेटिंग में अलग-अलग बदलाव करें। **जब डिवाइस लॉक किया गया हो** के अंतर्गत आने वाली सेटिंग को हमेशा ही किसी व्यक्तिगत ऐप की सेटिंग की अपेक्षा प्राथमिकता मिलेगी।
- **नोटिफिकेशन की एक्सेस.** देखें कि कौन से ऐप्स आपके नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं।

जब कोई नोटिफिकेशन आता है, तो स्क्रीन के शीर्ष पर उसका आइकन दिखाई देता है। लंबित नोटिफिकेशन के आइकन बाईं ओर दिखाई देते हैं और वाई-फ़ाई सिग्नल, मोबाइल वाहक सिग्नल या बैटरी की शक्ति दिखाने वाले सिस्टम आइकन बाईं ओर होते हैं:




बाईं ओर स्थिति आइकन से संबंधित नोटिफिकेशन देखने के लिए, एक अंगुली से नीचे की ओर स्वाइप करें।


टिप्स: वाई-फ़ाई और मोबाइल सिग्नल सशक्तता स्क्रीन के शीर्ष पर संबंधित आइकन में सफ़ेद क्षेत्र के द्वारा दर्शाई जाती है। यह देखने के लिए कि चयनित वाई-फ़ाई नेटवर्क में पूर्ण इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, स्क्रीन के ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करते हुए त्वरित सेटिंग खोलें।

केवल तेज़ सेटिंग में, वाई-फ़ाई या मोबाइल सिग्नल संकेतक के सफ़ेद क्षेत्र किसी सामान्य इंटरनेट कनेक्शन की सिग्नल सशक्तता दर्शाते हैं।

कुछ नोटिफिकेशन को ईमेल पूर्वावलोकन या कैलेंडर ईवेंट जैसी अधिक जानकारी दिखाने के लिए विस्तृत किया जा सकता है. संभव होने पर सबसे ऊपर वाले को विस्तृत किया जाता है. किसी नोटिफिकेशन को विस्तृत करने के लिए, एक अंगुली उसमें रखें और धीरे-धीरे नीचे स्वाइप करें.

संबंधित ऐप को खोलने के लिए, नोटिफिकेशन स्पर्श करें. कुछ सूचनाएं अपने अंदर आइकन को स्पर्श करके आपको विशिष्ट क्रियाओं को भी करने भी देती हैं. उदाहरण के लिए, कैलेंडर सूचनाएं आपको स्नूज़ करने (आपको बाद में याद दिलाने) देती हैं या अन्य अतिथियों को ईमेल भेजने देती हैं.

जब आप नोटिफिकेशन को पूर्ण कर लें, तो उसे दूर स्वाइप कर दें. सभी नोटिफिकेशन खारिज करने के लिए, नोटिफिकेशन सूची में सबसे नीचे खारिज करें  स्पर्श करें.





अपनी स्क्रीन पिन करना

आप अपने डिवाइस को स्क्रीन पिन करने का उपयोग करके किसी निश्चित ऐप की स्क्रीन दिखाना चुन सकते हैं यह सुविधा तब सुविधाजनक हो सकती है यदि आप होम बटन स्पर्श करने पर ऐप को आकस्मिक रूप से संक्षिप्त किए बिना कोई गेम खेलना चाहते हैं. कुछ ऐप्स आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप स्क्रीन पिन करने का उपयोग करना चाहते हैं.

स्क्रीन के अनपिन किए जाने पर, आप लॉक स्क्रीन पर वापस लौटना चुन सकते हैं.


किसी स्क्रीन को पिन करने के लिए:

1. सेटिंग  > व्यक्तिगत > सुरक्षा > स्क्रीन पिन करना पर जाएं और स्क्रीन पिन करना चालू करें.
2. वह ऐप खोलें जिसे आप पिन करना चाहते हैं.
3. अपने डिवाइस पर अवलोकन स्पर्श करें. नीचे मौजूद पहली स्क्रीन को दृश्य में लाने के लिए उसे ऊपर स्वाइप करें.
4. पिन  स्पर्श करें. स्क्रीन के अनपिन हो जाने के बाद लॉक स्क्रीन पर वापस लौटने का विकल्प चुनें.
5. पिन की गई स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए, और को एक ही समय पर स्पर्श करके रखें.

Google नाओ

Google नाओ आप तक सही समय पर, सही जानकारी पहुंचाने के लिए है. आपके दिन की शुरूआत से पहले यह आपको आज का मौसम बताता है, आपके काम पर जाने से पहले बताता है कि ट्रैफिक कितना होगा, और यहां तक कि यदि आपकी पसंदीदा टीम खेल रही है तो उसका स्कोर भी बताता है.

उदाहरण के लिए, यहां एक Google नाओ कार्ड है जो तभी दिखाई देता है जब आप निकालने वाले होते हैं:



🚦 3 पर ट्रैफिक जाम. 4 मिनट के विलंब की संभावना
और आपके मार्ग में अन्य बाधाएं हैं

Google नाओ का उपयोग प्रारंभ करने के बाद, आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं होती. आप कुछ सेटिंग ठीक कर सकते हैं, लेकिन Google नाओ को किसी भी विस्तृत सेटअप की आवश्यकता नहीं होती.


यह कैसे काम करता है

यह जानने के लिए कि आपके लिए उपयोगी जानकारी कब दिखाना है, Google नाओ आपके डिवाइस और Google के अन्य उत्पादों से प्रासंगिक डेटा के साथ ही उन तृतीय पक्ष उत्पादों के डेटा का उपयोग करती है जिन पर ऐक्सेस की अनुमति आपने Google नाओ को दी है. उदाहरण के लिए, यदि आपके पास Google कैलेंडर में ऐसा अपॉइंटमेंट

है जिसमें कोई पता शामिल है, तो Google नाओ ट्रैफ़िक जांच सकता है और निकलने का समय सुझा सकता है।

जब आप Google नाओ का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, तब आप **स्थान इतिहास को भी चालू कर सकते हैं**। स्थान इतिहास Google को आपके उन सभी डिवाइसों के स्थान डेटा का इतिहास संग्रहीत करने देता है जिनमें आपने अपने Google खाते में प्रवेश किया हुआ है। आप इस वैश्विक सेटिंग को तथा प्रत्येक डिवाइस की सेटिंग को **सेटिंग > व्यक्तिगत > स्थान > Google स्थान इतिहास से नियंत्रित कर सकते हैं**।

अपने नाओ कार्ड प्रबंधित करने के लिए:

- होम स्क्रीन पर किसी भी खाली स्थान को स्पर्श करके रखें, फिर **सेटिंग**  **> नाओ कार्ड** स्पर्श करें।

Google नाओ खोलने के लिए, पहली होम स्क्रीन से दाएं स्वाइप करें या किसी भी स्क्रीन से होम बटन स्पर्श करके रखें। गई जानकारी Google नाओ कार्ड के रूप में दिखाई देती है। जब आपको कार्ड की कोई आवश्यकता ना रह जाए, तो उसे बाएं से दाएं स्वाइप कर दें। दाएं से बाएं स्वाइप करने से आप मुख्य होम स्क्रीन पर वापस लौट जाते हैं।

Google नाओ के बारे में अधिक जानने के लिए, नाओ कार्ड कैसे काम करते हैं पर जाएं।

आप Google से अपने लिए क्या-क्या करने के लिए कह सकते हैं




जब आप Google नाओ का उपयोग करते हैं, तब आप बस अपने डिवाइस से बात करते हुए खोज कर सकते हैं, दिशानिर्देश प्राप्त कर सकते हैं और रिमाइंडर्स बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, “Ok Google, क्या कल मुझे छाते की आवश्यकता होगी?” बोलें ताकि यह देख सकें कि मौसम के पूर्वानुमान में वर्षा होने वाली है या नहीं।

आप क्या-क्या कह सकते हैं इसके अन्य उदाहरण देखने के लिए, “Ok Google” और बोलकर खोजना पर जाएं। आप इनमें से अधिकांश उदाहरण अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, जापानी, कोरियाई, रूसी, स्पैनिश और ब्राज़ीलियाई पुर्तगाली में बोल सकते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण इन सभी भाषाओं में उपलब्ध नहीं हैं।

यदि आप अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं में “Ok Google” बोलना चाहते हैं, तो आपको अपने डिवाइस की मुख्य भाषा भी बदलनी होगी। Google पर अपनी भाषा

बदलें पर जाएं.

“Ok Google” चालू या बंद करना

आप “Ok Google” बोलकर कोई खोज या कार्य प्रारंभ कर सकते हैं. इस सुविधा को बंद या चालू करने के लिए, Google Now या Google ऐप खोलें  और **मेनू**  > **सेटिंग**  > **वॉइस** > “Ok Google” पहचान स्पर्श करें.

टैप पर नाओ

Android 6.0 में, Google नाओ आपको अपनी स्क्रीन पर वर्तमान में मौजूद सामग्री पर आधारित प्रासंगिक सुझाव भी दे सकता है. इस सुविधा को **टैप पर नाओ** कहा जाता है. बस होम बटन पर टैप करके रखें और Google नाओ ऐसे संबंधित कार्ड दिखाएगा जो उपयोगी हो सकते हैं.

उदाहरण के लिए, यदि कोई मित्र आपको नए रेस्तरां में जाने के बारे में ईमेल करता है, तो आप तुरंत समीक्षाएं देखने, आरक्षण करने या दिखाई देने वाले नाओ कार्ड में रेस्तरां तक नेविगेट करने के लिए टैप करके रख सकते हैं.

Google



कल मिल रहे हैं



Lily Redmond

मुझे

अपराहन 4:26



मैं अति उत्साहित हूँ कि आपने मुंबई की अपनी यात्रा सप्ताहांत तक बढ़ा दी है. तो आइए कल सुबह 11 बजे

जीजामाता उद्यान

4.3 ★★★★★ (327) · 4.6 मील



मानचित्र



फोन



TripAdvisor



Foursquare



Yelp

कैलेंडर ईवेंट बनाएं

11.00 अपराहन - जीजामाता उद्यान




3

कीबोर्ड का उपयोग करना

टिप्स: अंग्रेज़ी के अलावा कोई अन्य कीबोर्ड भाषा चुनने के लिए, **सेटिंग** ⚙ > **व्यक्तिगत** > **भाषा और इनपुट** पर जाएं. अधिक विवरण के लिए, [कीबोर्ड सहायता](#) पर जाएं.

लेख डालना और संपादित करना

लेख डालने के लिए ऑनस्क्रीन कीबोर्ड का उपयोग करें. वह Nexus फ़ोन पर इस तरह दिखाई देता है:



जैसे-जैसे आप लिखते जाते हैं, वैसे-वैसे कीबोर्ड के ऊपर प्रत्येक शब्द को पूर्ण करने के सुझाव दिखाई देने लगते हैं।

टैबलेट के कीबोर्ड भी इसी तरह काम करते हैं। कीबोर्ड को हटाने के लिए, उसके नीचे स्थित वापस जाएं बटन स्पर्श करें।

कुछ ऐप्स अपने आप कीबोर्ड को खोल देते हैं। अन्य में, आपको सबसे पहले यहां स्पर्श करना होता है जहां आप लिखना चाहते हैं।

मूलभूत संपादन


वह स्थान बदलें जहां आप लिखना चाहते हैं

- कर्सर स्पर्श करें, फिर उसके नीचे दिखाई देने वाले टैब को स्पर्श करके नई स्थिति पर खींचें।




लेख को चुनें

- लेख के भीतर स्पर्श करके रखें या डबल-टैप करें।
- प्रत्येक चयन के अंत में, टैब के साथ नज़दीकी शब्द हाइलाइट हो जाता है। चयन को बदलने लिए टैब खींचें।




लेख हटाएं

- कर्सर याचयनित लेख से पहले वाले वर्णों को हटाने के लिए हटाएं कुंजी  स्पर्श करें।


बड़े अक्षर लिखना

- एक अक्षर के लिए बड़े अक्षरों पर स्विच करने के लिए, Shift कुंजी  एक बार स्पर्श करें।
- आप Shift कुंजी  को लिखते समय भी स्पर्श करके रख सकते हैं या आप Shift कुंजी  स्पर्श कर सकते हैं और दूसरी कुंजी पर स्लाइड कर सकते हैं।
- कुंजी छोड़ने पर, छोटे अक्षर पुनः दिखाई देने लगते हैं।




कैप्स लॉक चालू करना

- Shift कुंजी  पर डबल-टैप करें या उसे स्पर्श करके रखें ताकि वह  में बदल जाए. लोअरकेस पर वापस लौटने के लिए Shift कुंजी  फिर से स्पर्श करें.

शब्द कैपिटलाइज़ेशन बदलना

- यदि आप अपने द्वारा पहले से लिखे गए किसी शब्द का कैपिटलाइज़ेशन तेज़ी से बदलना चाहते हैं, तो उसे चुनें और Shift कुंजी  स्पर्श करें.
- आपके पास शब्द को कैपिटलाइज़ करने या शब्द को सभी बड़े अक्षरों में बदलने का विकल्प होगा.

कोई प्रतीक या वर्ण लिखना

- एक शब्द के लिए प्रतीक कुंजी पर स्विच करने के लिए, प्रतीक कुंजी  एक बार स्पर्श करें.
- आप प्रतीक कुंजी को  लिखते समय भी स्पर्श करके रख सकते हैं या आप प्रतीक कुंजी  को स्पर्श कर सकते हैं और दूसरी कुंजी पर स्लाइड कर सकते हैं. जब आप कुंजी को छोड़ते हैं, तो अक्षर कुंजियां फिर से दिखाई देने लगेंगी.


और अधिक प्रतीकों और वर्णों को देखना

- स्वराघात वाले वर्णों या अतिरिक्त प्रतीकों को प्राप्त करने के लिए प्रतीकों या वर्णों को स्पर्श करके रखें.

कार्टें, कॉपी करें, चिपकाएं

- वह लेख चुनें जिसे आप काटना या कॉपी करना चाहते हैं. फिर **कार्टें** या **कॉपी करें** स्पर्श करें. लेख के कॉपी हो जाने पर, वह स्थान स्पर्श करें जहां आप लेख को चिपकाना चाहते हैं और **चिपकाएं** चुनें. यदि आप अन्य लेख को कॉपी किए गए लेख के साथ प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, तो लेख को हाइलाइट करें, फिर **चिपकाएं** स्पर्श करें. इसके बजाय, कुछ डिवाइसों पर कार्टें, कॉपी करें और चिपकाएं के आइकन

दिखाई दे सकते हैं.



इमोजी

अपने संदेशों को मज़ेदार बनाने हेतु भावना (जिसे इमोजी कहा जाता है) व्यक्त करने के लिए विविध प्रकार के छोटे, रंगीन चित्रों को चुनने के लिए Google कीबोर्ड का उपयोग करें. आपके ऐप पर निर्भर करते हुए, आपको वापस लौटें कुंजी (या कभी-कभी अगला कुंजी, दाईं ओर वाला तीर जो वापस लौटें कुंजी के बजाय दिखाई देता है) स्पर्श करके रखना होगा और उसके बाद इमोजी दिखाने के लिए अपनी अंगुली को खुशी वाल चेहरे 😊 पर स्लाइड करना होगा. किसी टैबलेट पर, बस नीचे दाईं ओर इमोजी प्रतीक को स्पर्श करें.

आपको इसके जैसा एक फलक दिखाई देगा. श्रेणियों के बीच जाने के लिए, बाएं या दाएं स्वाइप करें या शीर्ष पंक्ति में दिए गए प्रतीकों को स्पर्श करें. कोई इमोजी लिखने के लिए, उसे स्पर्श करें:





अगले शब्द के सुझावों का उपयोग करना

1. वह स्थान स्पर्श करें जहां आप पाठ इनपुट करना चाहते हैं।
2. शब्द लिखना प्रारंभ करें. जब आपके द्वारा इच्छित शब्द कीबोर्ड के ऊपर स्थित सूची में दिखाई दे, तो उसे स्पर्श करें.
3. जब तक आपका इच्छित शब्द दिखाई न दे, तब तक शब्दों को स्पर्श करते रहें. यदि वह शब्द दिखाई दे, तो उसे लिखें.

आपके द्वारा लिखते समय Android शब्दों के सुझाव देता रहेगा.



अपने कीबोर्ड और इनपुट विधियों को बदलने के लिए, **सेटिंग > व्यक्तिगत > भाषा और इनपुट**  पर जाएं.

अगले शब्द-सुझाव चालू या बंद करने के लिए, **सेटिंग  > व्यक्तिगत > भाषा और इनपुट > कीबोर्ड और इनपुट विधियां > Google कीबोर्ड > लेख सुधार > अगले शब्द सुझाव** पर जाएं.

हावभाव लेखन

हावभाव लेखन अंग्रेजी में सबसे अच्छे से काम करता है. अन्य भाषाओं के लिए गुणवत्ता में अंतर हो सकता है, और कुछ अभी तक इसका समर्थन नहीं करती हैं.

हावभाव लेखन का उपयोग करके किसी शब्द को इनपुट करने के लिए:

1. कीबोर्ड खोलने के लिए वह स्थान स्पर्श करें जहां आप लिखना चाहते हैं.
2. जो शब्द आप इनपुट करना चाहते हैं, उसके अक्षरों पर अपनी अंगुलियों को धीरे-धीरे स्लाइड करें.
3. अपने इच्छित शब्द के चलायमान पूर्वावलोकन में या सुझाव पट्टी के बीच प्रदर्शित होने पर अपनी अंगुली उठा लें. सुझाव पट्टी में अन्य शब्दों में से एक चुनने के लिए, इसे स्पर्श करें.

यदि हावभाव लेखन का उपयोग करते समय आपका इच्छित शब्द दिखाई नहीं देता, तो आप उसे मैन्युअल रूप से लिख सकते हैं. यदि आप किसी शब्द को जेस्चर करते हैं और


उसे बदलना चाहते हैं, तो सुझाव पट्टी में अन्य विकल्पों को देखने के लिए शब्द स्पर्श करें।

टिप्स: यदि ऐसे अक्षर हैं जिन्हें आप महत्व देना चाहते हैं, स्लीप में “e” जैसे दोहराए जाने वाले अक्षर हैं, तो अगले अक्षर पर जाने से पहले “e” पर थोड़ी अधिक देर तक रोकें।

स्पेस बार के बिना हावभाव लेखन का उपयोग करना

जब आप हावभाव लेखन का उपयोग करते हैं, तो स्पेस बार उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती—बस जिन अक्षरों को आप इनपुट करना चाहते हैं उन पर अपनी अंगुलियां स्लाइड करते रहें और फिर अगला शब्द प्रारंभ करने के लिए अपनी अंगुली उठा लें।




हावभाव लेखन सेटिंग बदलने के लिए, **सेटिंग**  > **व्यक्तिगत** > **भाषा और इनपुट** > **कीबोर्ड और इनपुट विधियां** > **Google कीबोर्ड** > **हावभाव लेखन** पर जाएं।

कीबोर्ड शब्दकोश

कीबोर्ड डिक्शनरी प्रबंधित करने के लिए, **सेटिंग**  > **व्यक्तिगत** > **भाषा और इनपुट** पर जाएं।


व्यक्तिगत शब्दकोश

अपनी व्यक्तिगत डिक्शनरी में अपने स्वयं के शब्द जोड़ें जिससे आपका डिवाइस उन्हें याद रखे। वैकल्पिक शॉर्टकट सहित, कोई शब्द या वाक्यांश जोड़ने के लिए, **सेटिंग**  > **व्यक्तिगत** > **भाषा और इनपुट** > **व्यक्तिगत शब्दकोश** पर जाएं और शब्दकोश की उस भाषा पर जाएं जिसमें आप बदलाव करना चाहते हैं, फिर जोड़ें **+** चुनें और शब्द लिखें। जब आप लिखते समय वैकल्पिक शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, तो आपका शब्द या वाक्यांश कीबोर्ड के ऊपर सुझाए गए शब्दों में विकल्प के रूप में दिखाई देता है।

बोलकर लिखना

उन अधिकांश स्थानों पर, जहां आप ऑनस्क्रीन कीबोर्ड द्वारा पाठ डाल सकते हैं, वहां


आप बोलकर भी पाठ डाल सकते हैं.

1. कोई लेख फ़ील्ड स्पर्श करें या आपके द्वारा लेख फ़ील्ड में पहले से डाले गए लेख में किसी स्थान पर स्पर्श करें.
2. ऑनस्क्रीन कीबोर्ड पर माइक्रोफ़ोन  कुंजी स्पर्श करें.
3. जब आपको माइक्रोफ़ोन का चित्र दिखाई दे, तो वह बोलें जो आप लिखना चाहते हैं.

कुछ भाषाओं में, आप विरामचिह्न को बोलकर भी डाल सकते हैं, जैसे "अल्पविराम," "पीरियड," "प्रश्न चिह्न," "विस्मयादिबोधक चिह्न," या "विस्मयादिबोधक बिंदु." समर्थित भाषाओं में अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, रूसी और स्पैनिश शामिल हैं.

आपके ध्वनि इनपुट की प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, Google किसी भी समय अस्थायी स्मृति में कुछ सेकंड के पृष्ठभूमि शोर को रिकॉर्ड कर सकता है. डिवाइस पर यह रिकॉर्डिंग अस्थायी रूप से ही रहती है और Google को नहीं भेजी जाती.



अपनी बोली सेटिंग बदलने के लिए, **सेटिंग**  > **व्यक्तिगत** > **भाषा और इनपुट** पर जाएं.


ऐक्सेस नियंत्रित करना

अपने डिवाइस पर खाते प्रबंधित करना


आप खातों को इस प्रकार जोड़ सकते हैं जिससे उन खातों से संबंधित जानकारी आपके फ़ोन या टैबलेट से अपने आप समन्वयित हो जाए। यदि आप ईमेल प्राप्त करना चाहते हैं या आप Google Play पर ऐप्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने डिवाइस पर एक खाता सेट करना होगा।

आप अपने डिवाइस के लिए एकाधिक उपयोगकर्ता भी जोड़ सकते हैं, जैसे यदि कई लोग एक ही टैबलेट को साझा करते हैं। उपयोगकर्ताओं को जोड़ना खातों को जोड़ने से अलग है। प्रत्येक उपयोगकर्ता की अलग सेटिंग होती है और वह दूसरे उपयोगकर्ताओं के खाते ऐक्सेस नहीं कर सकता, वहीं किसी एक उपयोगकर्ता के एकाधिक खाते हो सकते हैं और वह उनके बीच आसानी से स्विच कर सकता है।

कोई खाता जोड़ना

1. **सेटिंग**  > **व्यक्तिगत** > **खाते** पर जाएं।
2. **खाता जोड़ें** स्पर्श करें।
3. खाते का वह प्रकार स्पर्श करें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। आप Google, व्यक्तिगत (IMAP) या व्यक्तिगत (POP3) जैसे विकल्पों में से चुन सकते हैं। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि IMAP चुनना है या POP3, तो पहले IMAP को आजमाएं। IMAP और POP3 के बीच अंतरों के बारे में और जानें।
अपना Google खाता जोड़ने के लिए, Google स्पर्श करें। जब आप किसी Google खाते से प्रवेश करते हैं, तो उस खाते से संबद्ध सभी ईमेल, संपर्क, कैलेंडर ईवेंट और अन्य डेटा आपके डिवाइस से अपने आप समन्वयित हो जाता है।
4. खाता जोड़ने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।



आपके द्वारा जोड़े गए किसी भी खाते की सेटिंग बदलने के लिए:

1. **सेटिंग**  > **व्यक्तिगत** > **खाते** पर जाएं.
2. अपना खाता चुनें. यदि आप Google खाते का उपयोग कर रहे हैं, तो Google स्पर्श करें और उसके बाद अपना खाता स्पर्श करें.

कोई खाता निकालना

जब आप उस खाते को निकालते हैं जिसे आपने अपने डिवाइस में जोड़ा हुआ है, तो ईमेल, संपर्कों तथा सेटिंग सहित, उस खाते से संबंधित जो कुछ भी है उसे निकाल दिया जाता है.

अपने डिवाइस से किसी खाते को निकालने के लिए:


1. निर्धारित करें कि आप जिस खाते को निकालना चाहते हैं क्या वह वही खाता है जिसका उपयोग आपने अपना डिवाइस सेट करने के लिए किया था.
 - यदि ऐसा नहीं है, तो चरण 2 पर जाएं और निर्देशों का पालन करें.
 - यदि ऐसा है, तो नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करने के बजाय अपने डिवाइस को उसकी फ़ैक्टरी सेटिंग पर रीसेट करें. इससे आपके डिवाइस से सभी डेटा मिट जाता है. अपने Nexus डिवाइस या Android One डिवाइस पर फ़ैक्टरी डेटा रीसेट करने का तरीका जानें.
2. **सेटिंग**  > **व्यक्तिगत** > **खाते** पर जाएं.
3. उस खाते का नाम स्पर्श करें जिसे आप निकालना चाहते हैं. यदि आप Google खाते का उपयोग कर रहे हैं, तो Google स्पर्श करें और उसके बाद अपना खाता स्पर्श करें.
 - जब आप अपने Google खाते से प्रस्थान करते हैं, तो उस खाते से संबंधित सभी ईमेल, संपर्क, कैलेंडर ईवेंट और अन्य डेटा अब आपके डिवाइस से समन्वयित नहीं किए जाएंगे.
4. स्क्रीन के शीर्ष दाएं कोने में **मेनू**  स्पर्श करें.
5. **खाता निकालें स्पर्श करें.**

अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ अपना डिवाइस साझा करना

आप प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अलग उपयोगकर्ता स्थान बनाकर अपने डिवाइस को परिवार और मित्रों के साथ आसानी से साझा कर सकते हैं. प्रत्येक उपयोगकर्ता अपनी स्वयं की कस्टम होम स्क्रीन, खाते, ऐप्स, सेटिंग आदि सेट कर सकता है. उपयोगकर्ताओं

को जोड़ने के लिए आपको डिवाइस का स्वामी होना चाहिए.

नया उपयोगकर्ता जोड़ने के लिए:

1. **सेटिंग**  > **डिवाइस** > **उपयोगकर्ता** पर जाएं.
2. **उपयोगकर्ता जोड़ें स्पर्श करें** और उसके बाद **ठीक स्पर्श करें**.
यदि आप नए उपयोगकर्ता के साथ हैं: **अभी सेट करें** स्पर्श करें और आपको लॉक स्क्रीन पर ले जाया जाएगा. नया उपयोगकर्ता चुनें, स्क्रीन अनलॉक करें और उसे अपना Google खाता एवं अन्य विवरण सेट करने दें.
यदि नया उपयोगकर्ता आस-पास ना हो: **अभी नहीं स्पर्श करें**. एक नया उपयोगकर्ता सूची में दिखाई देगा. अगली बार जब आप उपयोगकर्ता के साथ हों, तो उपयोगकर्ता सूची पर वापस जाएं और **नया उपयोगकर्ता** चुनें या लॉक स्क्रीन पर उपयोगकर्ता चित्र पर क्लिक करें.



उपयोगकर्ता सेट हो जाने के बाद, जब आप लॉक स्क्रीन पर जाएंगे तो आपको स्थिति बार में दूसरे उपयोगकर्ता का प्रोफ़ाइल चित्र या अवतार दिखाई देगा. उपयोगकर्ता चुनने के लिए, उसका चित्र स्पर्श करें और स्क्रीन अनलॉक करें. प्रत्येक उपयोगकर्ता अपना स्वयं का स्क्रीन लॉक सेट कर सकता है.

उपयोगकर्ताओं को स्विच करना



उपयोगकर्ताओं को स्विच करने हेतु, तेज़ सेटिंग खोलने के लिए किसी भी स्क्रीन के शीर्ष से नीचे की ओर दो बार स्वाइप करें. स्क्रीन के शीर्ष दाएं कोने में वर्तमान उपयोगकर्ता का चित्र स्पर्श करें और उसके बाद दूसरे उपयोगकर्ता का चित्र स्पर्श करें.

किसी उपयोगकर्ता को निकालना

डिवाइस का स्वामी अपने द्वारा जोड़े गए किसी भी उपयोगकर्ता को हटा सकते हैं:


1. **सेटिंग**  > **डिवाइस** > **उपयोगकर्ता**  पर जाएं.
2. उपयोगकर्ता के नाम के आगे **सेटिंग** स्पर्श करें, फिर **उपयोगकर्ता निकालें** स्पर्श करें.

अन्य उपयोगकर्ता केवल स्वयं का उपयोगकर्ता स्थान हटा सकते हैं:

1. **सेटिंग**  > **डिवाइस** > **उपयोगकर्ता** पर जाएं.
2. **मेनू**  > **इस डिवाइस से उपयोगकर्ता नाम हटाएं** स्पर्श करें.

अतिथि उपयोगकर्ता

यदि कोई आपके डिवाइस का उपयोग अस्थायी रूप से करना चाहता है लेकिन उसे नियमित उपयोगकर्ता के रूप में सेट अप करने की आवश्यकता नहीं है तो वह इसका उपयोग अतिथि के रूप में कर सकता है. अतिथि उपयोगकर्ता आपके मेल, आपके ऐप्स या आपके फ़ोन पर मौजूद आपके खाते से संबंधित किसी भी सामग्री जैसे फ़ोटो या डाउनलोड की गई फ़ाइल को ऐक्सेस नहीं कर सकते. अतिथि जोड़ने के लिए आपको डिवाइस का स्वामी होगा चाहिए.

1. **सेटिंग**  > **डिवाइस** > **उपयोगकर्ता पर जाएं.**
2. **अतिथि** स्पर्श करें.

आपके अतिथि द्वारा आपके डिवाइस का उपयोग समाप्त करने के बाद आप अन्य उपयोगकर्ता में वापस स्विच कर सकते हैं.


अन्य उपयोगकर्ता में स्विच करने के लिए: किसी भी स्क्रीन के शीर्ष से नीचे की ओर स्वाइप करें और फिर त्वरित सेटिंग खोलने के लिए शीर्ष पर स्थित बार स्पर्श करें. अन्य उपयोगकर्ता चुनने के लिए स्क्रीन के शीर्ष दाएं कोने में चित्र को स्पर्श करें, फिर अन्य किसी अन्य उपयोगकर्ता का चित्र स्पर्श करें.

सुरक्षा

आपकी स्क्रीन के लिए कोई लॉक सेट होने पर, स्क्रीन के निष्क्रिय अवस्था में जाते ही या आपके द्वारा पावर बटन दबाने पर स्क्रीन गहरी होकर लॉक हो जाती है.

आप स्क्रीन लॉक सेटिंग का उपयोग करके विभिन्न क्षमता वाले लॉक सेट कर सकते हैं:



1. **सेटिंग**  > **व्यक्तिगत** > **सुरक्षा** > **स्क्रीन लॉक** पर जाएं.
2. वह स्क्रीन लॉक प्रकार स्पर्श करें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं.

आपकी स्क्रीन लॉक होने पर भी आप कुछ गतिविधियां निष्पादित कर सकते हैं.

- **तेज़ सेटिंग:** तेज़ सेटिंग देखने के लिए स्क्रीन के शीर्ष से नीचे की ओर स्वाइप करें.
- **कैमरा:** कैमरा खोलने के लिए अपनी स्क्रीन पर दाएं से बाएं स्वाइप करें या नीचे दाएं कोने में कैमरा आइकन से दूर स्वाइप करें.

- **आपातकालीन कॉल (केवल फ़ोन):** ऊपर स्वाइप करें और **आपातकालीन शब्द** को स्पर्श करें.

यदि आपके पास एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए सेट अप किया गया डिवाइस है, तो आपको अपनी लॉक की हुई स्क्रीन देखने के लिए स्क्रीन के नीचे वाले भाग में अपने चित्र पर क्लिक करने की आवश्यकता हो सकती है.

अधिक जानकारी के लिए, स्क्रीन लॉक सेट करें पर जाएं.

Smart Lock

जब आपका डिवाइस आपके पास सुरक्षित हो तो उसे अनलॉक बनाए रखने के लिए आप Smart Lock को चालू कर सकते हैं—उदाहरण के लिए, जब आप किसी विश्वसनीय स्थान पर हों या जब डिवाइस आपका चेहरा पहचान ले. इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, **सेटिंग > व्यक्तिगत > सुरक्षा > Smart Lock** पर जाएं.

विश्वसनीय डिवाइस

किसी ब्लूटूथ डिवाइस—जैसे घड़ी, फ़िटनेस ट्रैकर, हैडसेट या कार स्पीकर सिस्टम से कनेक्ट होने पर आप अपने डिवाइस को अनलॉक बने रहने के लिए सेट कर सकते हैं. आप अपने फ़ोन को उसके द्वारा NFC टैग स्पर्श करने पर भी अनलॉक के लिए सेट कर सकते हैं.

चेहरे की पहचान

डिवाइस द्वारा आपका चेहरा पहचानने पर आपका डिवाइस अनलॉक हो सकता है. विश्वसनीय चेहरा सेट करने के बाद, हर बार आपके द्वारा अपना डिवाइस चालू करने पर, वह आपका चेहरा ढूँढेगा और यदि वह आपको पहचानता है तो अनलॉक हो जाएगा. ध्यान रखें कि आपके समान दिखने वाला कोई व्यक्ति आपके फ़ोन को अनलॉक कर सकता है.

ध्यान दें: चेहरा मिलान आपका कोई भी फोटो संग्रहीत नहीं करता है. आपके चेहरे की पहचान करने वाला डेटा केवल आपके डिवाइस में संग्रहीत होता है और ऐप्स द्वारा ऐप्स से योग्य नहीं होता है या Google सर्वर पर इसका बैकअप नहीं लिया जाता है.

पहनने पर पहचान

जब आपने अपने डिवाइस को पहना हुआ हो, तो आप उसे अनलॉक रख सकते हैं — उदाहरण के लिए, यदि आप उसे अपने हाथ में, पॉकेट में या बैग में ले जा रहे हों। आपके डिवाइस में अंतर्निहित एक्सीलरोमीटर आपके डिवाइस को उस समय अनलॉक रखेगा जब उसे आभास होगा कि उसे ले जाया जा रहा है। समर्थित डिवाइसों पर, पहनने पर पहचान सुविधा आपके पैदल चलते समय फ़ोन में होने वाली हलचल को पहचान लेती है ताकि फ़ोन को तब लॉक किया जा सके जब उसमें ऐसी हलचल हो रही हो जिसका मिलान आपकी सामान्य चाल से ना हो रहा हो।

ध्यान दें: पहनने पर पहचान सुविधा से यह पता नहीं चल सकता कि कौन सा शरीर पहनने पर पहचान से कनेक्ट किया गया है। यदि आप अपने डिवाइस को उसके अनलॉक रहने के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं; तो हो सकता है कि आपका डिवाइस पहनने पर पहचान का उपयोग करके अनलॉक बना रहे।

विश्वसनीय स्थान

आप अपने घर जैसा विश्वसनीय स्थान चुन सकते हैं ताकि, जब भी आप वहां हों तब आपका फ़ोन अनलॉक रहे। आपके पास विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन होगा चाहिए और आपके फ़ोन को उस विश्वसनीय स्थान का इंटरनेट उपयोग करने देना होगा। विश्वसनीय स्थान की सुविधा आपके पास वाई-फ़ाई कनेक्शन होने पर सबसे अच्छे तरीके से काम करती है।

विश्वसनीय आवाज़

“Ok Google” के द्वारा खोज करते समय आप डिवाइस को अनलॉक रख सकते हैं। यदि हम आपकी आवाज़ की ध्वनि पहचान पाते हैं, तो आपको खोज परिणाम देखने के लिए अपना पासवर्ड नहीं डालना होगा। “Ok Google” के द्वारा खोज करने और अपने डिवाइस को अनलॉक करने का तरीका जानें।

Smart Lock का उपयोग करने पर अधिक जानकारी के लिए, अपने डिवाइस को स्वचालित अनलॉक के लिए सेट करना देखें।

Nexus Imprint

फ़िंगरप्रिंट संवेदक वाले Nexus डिवाइसों में, आप अपने डिवाइस को अनलॉक करने के लिए अपने फ़िंगरप्रिंट का उपयोग कर सकते हैं। पिन या पासवर्ड डालने के बजाय,

आप बस संवेदक को स्पर्श कर सकते हैं.

अधिक जानकारी के लिए, [Nexus Imprint](#) के बारे में देखें.

हानिकारक ऐप्स से सुरक्षा करना

आपके डेटा और डिवाइस को नुकसान से बचाने के लिए Google Play के ऐप्स Google द्वारा हमेशा सत्यापित किए जाते हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से, आपका डिवाइस Google Play के अलावा अन्य स्रोतों के ऐप्स के इंस्टॉलेशन की अनुमति नहीं देता.


यदि आप अन्य स्रोतों के ऐप्स के इंस्टॉलेशन की अनुमति देना चुनते हैं, तो अधिक संभावना है कि आपके डिवाइस पर हानिकारक ऐप्स आ जाएं.

ऐप्स सत्यापित करें सुविधा आपके डिवाइस के लिए हानिकारक होने वाले, आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराने वाले या अन्य दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने वाले ऐप्स के लिए लगातार जांच करते हुए आपकी सुरक्षा करती है - चाहे वे कहीं से भी आ रहे हों. आपके Android सॉफ़्टवेयर के नियमित अपडेट यह सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं कि आपका डिवाइस ऐसे ऐप्स की पहचान करके आपको चेतावनी दे सके जिन्हें खतरनाक माना जाता है. जब भी आपको ऐसे अपडेट की सूचना प्राप्त हो तो उन्हें अवश्य स्वीकार करें.

अधिक जानकारी के लिए या डिफ़ॉल्ट व्यवहार को बदलने के लिए, [हानिकारक ऐप्स से सुरक्षा करना](#) देखें.


Android डिवाइस प्रबंधक

यदि आप अपना फ़ोन या टैबलेट खो देते हैं, तो Android डिवाइस प्रबंधक उसका अनुमानित स्थान पता करने, उसे बजाने, उसे लॉक करने या उसका डेटा मिटाने में आपकी सहायता कर सकता है.

ये विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से चालू रहते हैं. उन्हें देखने या बदलने के लिए, **सेटिंग्स**  > **व्यक्तिगत** > Google > **सुरक्षा** खोलें.

यदि आपका डिवाइस खो जाता है, तो [Android डिवाइस मैनेजर](#) पर जाएं और निर्देशों का पालन करें.

बैकअप लेना और रीसेट करना


यदि आप वह Google खाता बदलना चाहते हैं जिस पर आपका डिवाइस बैकअप लेता है, तो आप उसे **सेटिंग**  > **व्यक्तिगत** > **बैकअप लेना और रीसेट करना** में बदल सकते हैं.

यदि आप किसी ऐप को पुनः इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपका डिवाइस Google डिस्क की बैकअप ली गई सेटिंग और डेटा को अपने आप पुनर्स्थापित कर सकता है. आप पहली बार अपना डिवाइस सेट करते समय यह विकल्प चुन सकते हैं और उसे **सेटिंग** > **व्यक्तिगत** > **बैकअप लेना और रीसेट करना** > **स्वचालित पुनर्स्थापना से चालू** या बंद कर सकते हैं.

अपने फ़ोन से भुगतान करना

NFC के चालू होने पर, आप आइटम का भुगतान करने के लिए अपने फ़ोन को चेकआउट के समय संपर्क-रहित टर्मिनल के सामने पकड़े रहते हुए **टैप करें और भुगतान करें** सुविधा का उपयोग कर सकते हैं.


आपके द्वारा भुगतान के लिए उपयोग किया जाने वाला ऐप प्रबंधित करने के लिए:


- **सेटिंग**  > **डिवाइस** > **टैप करें और भुगतान करें** > **भुगतान डिफ़ॉल्ट** पर जाएं.

यदि आपके डिवाइस पर Android Pay जैसा कोई भुगतान ऐप नहीं है, तो “भुगतान ऐप्स” के लिए Google Play में खोजें. अधिक जानकारी के लिए, [अपने डिवाइस के द्वारा टैप करें और भुगतान करें](#) पर जाएं.

अपने डिवाइस पर सामग्री साझा करना और संग्रहीत करना


Android Beam


आप डिवाइसों को एक साथ लाकर (आमतौर पर एक के पीछे एक रखकर) अपनी स्क्रीन से किसी अन्य डिवाइस पर वेब पृष्ठ, वीडियो या अन्य सामग्री को झटपट बीम कर सकते हैं। कुछ ऐप्स में, साझा करें आइकन  भी आपको Android Beam का उपयोग करने का विकल्प देता है।

शुरुआत करने से पहले: सुनिश्चित करें कि दोनों डिवाइस अनलॉक हैं, नियर फ़िल्ड कम्यूनिकेशन (NFC) का समर्थन करते हैं और NFC और Android दोनों चालू कर दिए गए हैं। जांचने के लिए, **सेटिंग्स**  > **वायरलेस और नेटवर्क** > **अधिक** पर जाएं। NFC क्षेत्र की पहचान करने के लिए अपने डिवाइस के साथ आई प्रिंट की हुई मार्गदर्शिका देखें या उसका हार्डवेयर आरेखण देखें।

1. वह स्क्रीन खोलें जिसमें ऐसा कुछ शामिल है जिसे आप साझा करना चाहते हैं, जैसे वेबपृष्ठ, YouTube वीडियो या मानचित्र में स्थानगत पृष्ठ।
2. अपने डिवाइस के पिछले भाग को अन्य डिवाइस के पिछले भाग के पास ले जाएं। कनेक्ट होने पर, आपको एक ध्वनि सुनाई देती है, आपकी स्क्रीन पर चित्र का आकार छोटा हो जाता है और आपको **बीम करने के लिए स्पर्श करें** संदेश दिखाई देता है।
3. अपनी स्क्रीन पर कहीं भी स्पर्श करें। दूसरा डिवाइस ट्रांसफर की गई सामग्री दिखाता है। यदि आवश्यक ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो Google Play ऐसी स्क्रीन में खुलता है जहां दूसरे डिवाइस का स्वामी ऐप को डाउनलोड कर सकता है।



NFC चालू करने के लिए, **सेटिंग्स**  > **वायरलेस और नेटवर्क** > **अधिक** > NFC पर जाएं।

Android Beam चालू करने के लिए, **सेटिंग**  > **वायरलेस और नेटवर्क** > **अधिक** > **Android Beam** पर जाएं

Google Cast


Google Cast ऐसी तकनीक है जो आपको अपने फ़ोन या टैबलेट के मनोरंजन और संगीत को अपने टीवी या स्पीकर पर कास्ट करने देती है। g.co/Castapps पर Netflix, YouTube, Pandora, Hulu Plus, HBO GO, WatchESPN, Google Play आदि सहित बढ़ती संख्या में Google Cast ऐप्स खोजें।

इन डिवाइस में अंतर्निहित Cast तकनीक होती है:

- ChromeCast: आपको अपने फ़ोन या टैबलेट का मनोरंजन अपने टीवी पर कास्ट करने देता है।
- ऑडियो के लिए Cast का समर्थन करने वाले डिवाइस: आपको अपने फ़ोन या टैबलेट के संगीत को संगत स्पीकर पर कास्ट करने देता है।
- Android TV डिवाइस: आपको टीवी पर, सेट-टॉप बॉक्स पर तथा गेम कंसोल पर कास्ट करने देते हैं।

ChromeCast का उपयोग करते समय, सुनिश्चित करें कि आपका फ़ोन या टैबलेट उसी वाई-फ़ाई नेटवर्क का उपयोग कर रहा है जिसका उपयोग आपका ChromeCast कर रहा है और यह कि ChromeCast को आपके टीवी के स्रोत इनपुट के रूप में चुना गया है।

अपने फ़ोन या टैबलेट की सामग्री अपने टीवी पर प्रदर्शित करने के लिए:


1. Cast का समर्थन वाले किसी ऐप में वीडियो या संगीत खोलें।
2. Cast आइकन  स्पर्श करें।
3. सामग्री को अपने टीवी पर स्ट्रीम करने के लिए उसे सामान्य रूप से चलाएं।

अधिक जानकारी के लिए, [ऐप्स से अपने टीवी पर कास्ट करना](#) देखें।

फ़ाइल मेमोरी

Android 6.0 आपके डिवाइस पर चित्रों, वीडियो तथा अन्य फ़ाइलों को संग्रहीत करना और उन्हें ईमेल, लेख और अन्य प्रकार के संदेशों में अटैच करना आसान बनाता है। आप

संग्रहीत चित्रों का उपयोग अपनी होम स्क्रीन के रूप में भी कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, आपके द्वारा लिखे जा रहे ईमेल में कोई चित्र अटैच करने के लिए, शीर्ष दाईं ओर स्थित पेपर क्लिप  स्पर्श करें और अपने डिस्क फ़ोल्डर में संग्रहीत चित्रों को चुनने के लिए **फ़ाइल अटैच करें** या **डिस्क से डालें** चुनें।



फ़ाइल अटैच करें से, आप इनमें से किसी भी स्रोत को देख सकते हैं:

- **हाल ही के** आपको अपने द्वारा लिए गए या सबसे हाल ही में खोले गए वीडियो या फ़ोटो दिखाता है।
- **डिस्क** आपको Google डिस्क में संग्रहीत किसी भी फ़ाइल को अटैच करने देती है।
- **चित्र** आपके डिवाइस पर मौजूद कोई भी फ़ोटो, वीडियो या अन्य चित्र दिखाता है।
- **डाउनलोड** में आपके द्वारा ईमेल या वेब से डाउनलोड की गई अधिकांश फ़ाइलें (Play सामग्री को छोड़कर) शामिल होती हैं
- **फ़ोटो** आपके डिवाइस पर मौजूद या आपके Google खाते में अपलोड किए गए सभी चित्र और वीडियो ब्राउज़ करने देता है।
- **ऑडियो** आपको अपने डिवाइस पर डाउनलोड की गई ऑडियो फ़ाइलें अटैच करने देता है।



आपके द्वारा Gmail या अन्य स्रोतों (Google Play पुस्तकें, वीडियो, पत्रिकाओं तथा अन्य मीडिया को छोड़कर) से डाउनलोड की गई फ़ाइलें देखने, पुनः खोलने या हटाने के लिए डाउनलोड ऐप का उपयोग करें

डाउनलोड ऐप में:

- किसी आइटम को खोलने के लिए उसे स्पर्श करें।
- अपने डाउनलोड की सूची में, किसी आइटम को चुनने के लिए उसे स्पर्श करके रखें। साझा करें  स्पर्श करें और सूची में से कोई साझाकरण विधि चुनें। हटाने के लिए ट्रैश में ले जाएं  स्पर्श करें।

Google Play खरीदियों और रेंटल को इंटरनेट के द्वारा स्ट्रीम करता है। जब आप खरीदियां और रेंटल चलाते हैं तो वे हमेशा ही संग्रहण स्थान नहीं घेरते हैं। यद्यपि आप सामग्री को ऑफ़लाइन ऐक्सेस करने के लिए उसे Google Play में डाउनलोड कर सकते हैं, फिर भी Google Play की सामग्री कभी भी डाउनलोड में दिखाई नहीं देती।

SD कार्ड मेमोरी

अधिकांश Android One की मेमोरी क्षमता बढ़ाने के लिए आप उनमें micro SD कार्ड डाल सकते हैं। यह सुविधा Nexus डिवाइस पर उपलब्ध नहीं है।

अधिक विवरण के लिए, [माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करना और उसका उपयोग करना](#) पर जाएं।


ड्यूअल-SIM कार्ड समर्थन




यदि आपके पास Android One फ़ोन है, तो आप दो SIM कार्ड का उपयोग कर सकते हैं: एक सेलुलर डेटा के लिए और दूसरा वॉइस के लिए। अधिक विवरण के लिए, [ड्यूअल-SIM](#) पर जाएं।

स्क्रीनशॉट

Nexus डिवाइस से स्क्रीनशॉट लेने के लिए:

1. सुनिश्चित करें कि आप जिस चित्र को कैप्चर करना चाहते हैं वह स्क्रीन पर दिखाया गया है।
2. पावर और वॉल्यूम कम करें बटन एक साथ दबाएं।


स्क्रीनशॉट को अपने आप फ़ोटो  में सहेज लिया जाता है और उसके उपलब्ध होने पर आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। नोटिफिकेशन स्पर्श करें या फ़ोटो खोलें और अपने सहेजे गए स्क्रीनशॉट देखने के लिए **मेनू ≡ > डिवाइस फ़ोल्डर > स्क्रीनशॉट** पर जाएं।

टिप्स: अपने स्क्रीनशॉट को ईमेल, लेख संदेश या अन्य विकल्पों के माध्यम से आसानी से साझा करने के लिए, फ़ोटो  में अपना स्क्रीनशॉट चुनें और नीचे साझा करें  स्पर्श करें। बदलाव करने के लिए संपादित करें  स्पर्श करें।

प्रिंट करना



Android 6.0 के साथ, आप कुछ स्क्रीन की सामग्री (जैसे कि Chrome में दिखाए गए

वेब पृष्ठ) का पूर्वावलोकन कर सकते हैं और उन्हें अपने Android के समान वाई-फ़ाई नेटवर्क पर मौजूद प्रिंटर पर प्रिंट कर सकते हैं।

प्रिंट करने से पहले, आपको अपने डिवाइस पर प्रिंटिंग सेवा इंस्टॉल करनी होगी। यह देखने के लिए कि वर्तमान में कौन सी सेवा उपलब्ध है, **सेटिंग**  > **सिस्टम** > **प्रिंट करना** पर जाएं।

प्रत्येक उपलब्ध सेवा को चालू या बंद करने, उपलब्ध प्रिंटर की जांच करने, नए प्रिंटर जोड़ने और सेवा की सेटिंग एडजस्ट करने के लिए आप उसे खोल सकते हैं।

दस्तावेज़ को प्रिंट करने के लिए, जैसे Chrome में कोई वेबपृष्ठ:

1. **मेनू**  > **प्रिंट करें** स्पर्श करें।
2. दिखाई देने वाले संवाद में, प्रिंटर, कॉपी, अभिविन्यास आदि जैसी सेटिंग एडजस्ट करें।
3. **प्रिंट**  स्पर्श करें। अधिक जानकारी के लिए, अपने डिवाइस से प्रिंट करना पर जाएं।


6

कुछ ऐप्स आजमाएं


Play स्टोर




Google Play स्टोर आपके सभी पसंदीदा ऐप्स और गेम, फिल्मों, टीवी शो, पुस्तकों तथा समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को एक ही स्थान पर ले आता है ताकि आप अपने किसी भी डिवाइस से उन तक पहुंच सकें।


Play Store ऐप खोलने के लिए, Play स्टोर  स्पर्श करें।

यदि आपने पहले Play स्टोर में सामग्री खरीद है, तो आपको किसी भी Android डिवाइस पर इस सामग्री के लिए स्वतः पहुंच मिल जाएगी — बस सुनिश्चित करें कि आपने उसी खाते से प्रवेश किया है जिसका उपयोग आपने सामग्री खरीदने के लिए किया था। जांच करने के लिए:

1. Play स्टोर ऐप खोलें।
2. ऊपरी बाईं ओर **मेनू**  स्पर्श करें।

यहां से, आप वर्तमान खाता देख सकते हैं या किसी दूसरे खाते पर स्विच कर सकते हैं, अपने खरीदे गए ऐप्स देख सकते हैं, अपनी इच्छा सूची जांच सकते हैं तथा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं।

अपनी प्राथमिकताएं सेट करने, अपना खोज इतिहास साफ़ करने और उपयोगकर्ता नियंत्रण चालू करने के लिए, **मेनू**  **> सेटिंग** पर जाएं। उदाहरण के लिए, परिपक्वता के स्तर या खरीदारी के लिए किसी PIN की आवश्यकता के आधार पर ऐप्स फ़िल्टर करने के लिए, **अभिभावकीय नियंत्रण** या **खरीदारी के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक** स्पर्श करें।



अपडेट जांचने के लिए, **मेनू**  **> मेरे ऐप्स** पर जाएं।

Google Play सहायता

फ़ोन और ईमेल सहायता विकल्पों सहित, Google Play के बारे में अधिक विवरण के लिए, [Google Play सहायता केंद्र](#) पर जाएं.

Gmail







किसी भी मोबाइल डिवाइस से ईमेल लिखने और पढ़ने के लिए Gmail ऐप का उपयोग करें. उसे खोलने के लिए, किसी होम या सभी ऐप्स  स्क्रीन से Gmail  स्पर्श करें.

Gmail केवल ईमेल के बारे में नहीं है. आप अपने Gmail खाते का उपयोग सभी Google ऐप्स और सेवाओं में प्रवेश करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें निम्न सहित बहुत कुछ शामिल है:

- [Google नाओ](#), बिल्कुल सही समय पर आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए
- [कैलेंडर](#)
- [संपर्क](#), अपने संपर्कों पर नज़र रखने के लिए
- [Google डिस्क](#), दस्तावेज़ों के साथ काम करने के लिए

कोई संदेश पढ़ते समय:

- संदेश को संग्रहीत करने , बाहर करने  या उसे अपठित के रूप में चिह्नित करने  के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर मौजूद आइकन स्पर्श करें. लेबलों को ले जाने, बदलने, म्यूट करने, प्रिंट करने और ईमेल में अन्य कार्रवाइयां करने के लिए **मेनू**  के नीचे देखें.
- पिछली या अगली बातचीत पढ़ने के लिए बाएं या दाएं स्वाइप करें.

टिप्स: आप Gmail सेटिंग में Gmail में Microsoft Exchange जैसे खाते को जोड़कर अन्य खातों से अपना ईमेल ऐक्सेस कर सकते हैं.



अधिक जानकारी के लिए, [Gmail सहायता](#) पर जाएं.

कैमरा





कैमरा ऐप आपको नियमित फ़ोटो, पैनोरामिक फ़ोटो, वीडियो और इमर्सिव 360-डिग्री वाले photo sphere शॉट लेने देता है, जिनके आपके ऊपर और नीचे का चित्र भी कैप्चर हो जाता है।

कैमरा खोलने के लिए:

- लॉक स्क्रीन से, कैमरा  स्पर्श करें और नीचे दाएं कोने में कैमरा आइकन से दूर स्वाइप करें।
- होम स्क्रीन से, कैमरा  स्पर्श करें।

जब आप पहली बार कैमरा खोलते हैं, तब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आप फ़ोटो स्थानों को याद रखना चाहते हैं। यह आपको Google मानचित्र के साथ किसी विशेष फ़ोटो के स्थान को पिनपाइंट करने देता है।


जब आप कैमरा खोलते हैं, तब आप कई भिन्न कैमरा मोड में से चुन सकते हैं। मोड देखने के लिए, बाएं से दाएं स्वाइप करें या (सबसे नए Nexus फ़ोन पर) **मेनू**  स्पर्श करें।




कैमरा आइकन  कैमरा मोड का संकेत देता है। कोई चित्र लें:

1. अपना विषय फ़्रेम करें।

यदि आप फ़ोकस में सही समायोजन करना चाहते हैं, तो फ़ोकस रिंग पर नज़र रखें। चित्र को विभिन्न भागों पर फ़ोकस करने के लिए, उसे स्पर्श करें। ज़ूम इन करने के लिए, दो अंगुलियों को बाहर की ओर पिंच करें। ज़ूम आउट करने के लिए, दो अंगुलियों को अंदर की ओर पिंच करें।


2. जब फ़ोकस रिंग ब्रैकेट दिखाई ना दे, तो चित्र के नीचे वाला गोल कैप्चर बटन स्पर्श करें।

3. आपके द्वारा अभी-अभी लिए गए चित्र को देखने के लिए, दाएं से बाएं स्वाइप करें। हाल ही में कैप्चर की गई अन्य फ़ोटो देखने के लिए, दाएं से बाएं स्वाइप करते रहें। संग्रहीत फ़ोटो देखने के लिए, शीर्ष दाईं ओर स्थित फ़ोटो  स्पर्श करें।

4. फ़ोटो देखते समय, साझा करने के लिए , बदलाव करने के लिए संपादित करें  और हटाने के लिए  स्पर्श करें।

संग्रहीत किए गए अन्य चित्र देखने के लिए दाएं से बाएं स्वाइप करते रहें।

पुराने Nexus डिवाइसों पर, कैमरा मोड देखने के लिए मुख्य कैमरा स्क्रीन पर बाएं से दाएं स्वाइप करें.



नवीनतम Nexus डिवाइसों पर, आप वीडियो मोड पर स्विच करने के लिए दाएं से बाएं स्वाइप कर सकते हैं, फिर कैमरा पर वापस स्विच करने के लिए बाएं से दाएं स्वाइप कर सकते हैं. अन्य मोड देखने के लिए, चित्र क्षेत्र के शीर्ष बाईं ओर मेनू ≡ स्पर्श करें.

360 डिग्री पैनोरामा

- 360-डिग्री या वाइड एंगल शॉट कैप्चर करने के लिए, तब तक पैन करें या झुकाएं जब

तक कि स्क्रीन के केंद्र में स्थित घेरा नीले बिंदु पर नहीं चला जाता और चित्र के भाग को रिकॉर्ड नहीं कर लेता. बिंदुओं पर तब तक आगे बढ़ते जाएं जब तक कि आप समाप्त नहीं कर लेते, उसके बाद स्क्रीन के निचले भाग में स्थित सही का चिह्न ✓ स्पर्श करें.

पैनोरामा

- पैनोरामिक फ़ोटो लेना शुरू करने के लिए पैनोरामा स्पर्श करें.
 - अपना प्रारंभिक बिंदु ढूँढें और पैनोरामा में पहला चित्र लेने के लिए शटर को स्पर्श करें.
 - बाद में चित्र लेने के लिए, लक्ष्य आइकन को प्रत्येक बिंदु पर ले जाने के लिए फ़ोन को उसके स्थान पर तब तक घुमाएं जब तक कि सभी बिंदु नीले न हो जाएं.
 - बिंदुओं पर तब तक होवर करते रहें जब तक कि सभी बिंदु नीले ना हो जाएं और आपका चित्र पूर्ण ना हो जाए. फिर स्क्रीन के निचले भाग में सही का चिह्न ✓ स्पर्श करें.
-

फोटो ब्लर सुविधा



- फ़ोटो ब्लर सुविधा स्पर्श करें और फिर तीर का अनुसरण करते हुए डिवाइस को धीरे-धीरे उठाएं.
-

कैमरा

- नियमित चित्र लेने के लिए कैमरा स्पर्श करें.
-

वीडियो

- वीडियो रिकॉर्डिंग प्रारंभ करने के लिए, वीडियो बटन स्पर्श करें. बंद करने के लिए वर्ग ■ पर स्पर्श करें.

फ़्लैश ⚡, ग्रिड , टाइमर , जैसे प्रत्येक मोड की सेटिंग बदलने के लिए फ़्रैम किए गए चित्र के नीचे दाईं ओर स्थित तीन बिंदुओं को स्पर्श करें.

टिप्स: HDR+, जो कुछ Nexus डिवाइस पर उपलब्ध है, बहुत सी फ़ोटो अपने आप

ही तेज़ी से खींच लेता है और आपको एक श्रेष्ठ संभव एकल शॉट देने के लिए उन सभी को संयुक्त कर देता है। HDR+ चालू करने के लिए, शटर के नीचे दाईं ओर स्थित ... को स्पर्श करें और HDR+ चुनें। यह सुविधा बैकलिट दृश्यों या अत्यधिक चमकीले और अत्यधिक गहरे तत्वों के लिए भी सर्वाधिक उपयोगी है।

अधिक विवरण के लिए, [कैमरा सहायता](#) पर जाएं।


फ़ोटो



फ़ोटो ऐप आपको अपने फ़ोन या टैबलेट पर मौजूद सभी फ़ोटो तथा आपकी Google फ़ोटो लाइब्रेरी में समन्वयित किसी भी चीज़ की झटपट ऐक्सेस देता है।

आप किसी भी चीज़ के लिए अपनी फ़ोटो खोज सकते हैं। अधिक विवरण के लिए, [अपनी फ़ोटो में लोग, चीज़ें और स्थान ढूंढें](#) पर जाएं।

निम्न से फ़ोटो खोलने के लिए:

- कैमरा ऐप. दाएं से बाएं स्वाइप करें.
- सभी ऐप्स स्क्रीन. फ़ोटो  स्पर्श करें.

फ़ोटो ऐप अपनी फ़ोटो और वीडियो का बैकअप लेना, उन्हें व्यवस्थित करना और साझा करना आसान बनाता है. अपनी फ़ोटो का बैकअप लेने के लिए आप उच्च गुणवत्ता या मूल, इन दो मेमोरी आकारों के बीच चुनाव कर सकते हैं.

यदि आप **उच्च गुणवत्ता** मेमोरी आकार को चुनते हैं, तो फिर आपको उन फ़ोटो और वीडियो के लिए असीमित निःशुल्क मेमोरी मिलेगी जिन्हें आकार या रिज़ॉल्यूशन में कम किया जा सकता है. अधिक विवरण के लिए, [मेमोरी आकार चुनें](#) पर जाएं.

अधिक विवरण के लिए, [फ़ोटो सहायता](#) पर जाएं.

संपर्क

संपर्क ऐप आपको अपने सभी संग्रहीत संपर्कों की तेज़ ऐक्सेस देता है. उसे खोलने के लिए, किसी होम या सभी ऐप्स स्क्रीन पर **संपर्क** आइकन







स्पर्श करें.

जब आप पहली बार अपने डिवाइस को चालू करते हैं और Google खाते में प्रवेश करते हैं, तो उस खाते के मौजूदा संपर्क आपके संपर्क ऐप के साथ समन्वयित हो जाते हैं. उसके बाद, आपके संपर्क आपके विभिन्न डिवाइसों या वेब ब्राउज़र पर अपने आप समन्वयित रहते हैं.

यदि आप Exchange का उपयोग करते हैं, तो आप उस संपर्क जानकारी को **संपर्कों** के साथ भी समन्वयित कर सकते हैं.

आपकी सभी **संपर्क** जानकारी Gmail, Hangouts और अन्य ऐप्स से उपलब्ध रहती है. जैसे ही आप भिन्न स्रोतों से संपर्कों को जोड़ते हैं, तो वे अपने आप उन सभी स्थानों पर समन्वयित हो जाते हैं, जहां आपको उनकी आवश्यकता होती है.

जब आप **संपर्क** ऐप खोलते हैं, तो आप यह कर सकते हैं:

- **सभी संपर्क या पसंदीदा देखना.** स्क्रीन के शीर्ष से चुनें.
- **कोई संपर्क जोड़ना.** संपर्क जोड़ें  स्पर्श करें.
- **विवरण पढ़ना.** संपर्क या समूह का विवरण देखने के लिए नाम स्पर्श करें.
- **कोई संपर्क** या साझा करें या अक्सर उपयोग किए जाने वाले संपर्क को होम स्क्रीन पर रखें. मेनू  **स्पर्श मकरें.**
- **विवरण संपादित करना.** किसी संपर्क को देखते समय, संपर्क की जानकारी संपादित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर संपादित करें  स्पर्श करें.
- **अपनी सेटिंग बदलना.** मुख्य सूची स्क्रीन देखते समय, संपर्कों को आयात या निर्यात करने, प्रदर्शन विकल्प चुनने और खाते जोड़ने या संपादित करने के लिए मेनू  स्पर्श करें.

अधिक जानकारी के लिए, [संपर्क सहायता](#) पर जाएं.

Hangouts

Hangouts के साथ, आप किसी Google खाते के द्वारा किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉल कर सकते हैं. आप दूसरों के साथ अपनी फ़ोटो



तथा अपना स्थान साझा कर सकते हैं. कुछ Nexus डिवाइसों पर, Hangouts आपका डिफ़ॉल्ट संदेश सेवा ऐप भी है.

Hangouts का उपयोग करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए [Hangouts सहायता](#) पर जाएं.

कैलेंडर

31

अपना शेड्यूल देखने और संपादित करने के लिए कैलेंडर ऐप का उपयोग करें. उसे खोलने के लिए, किसी होम या सभी ऐप्स स्क्रीन पर कैलेंडर स्पर्श करें.

जब आप सबसे पहले अपना Android डिवाइस सेट करते हैं, तो आपके पास किसी Google खाते (जैसे कि Gmail) का उपयोग करने के लिए उसे कॉन्फ़िगर करने का विकल्प होता है. जब आप अपने फ़ोन या टैबलेट पर पहली बार कैलेंडर ऐप को खोलते हैं, तो वह वेब पर उस Google खाते के सभी मौजूदा कैलेंडर ईवेंट दिखाएगा.

जैसे-जैसे आप ईवेंट संपादित करते हैं, वे अपने आप ही उन सभी स्थानों से समन्वयित हो जाते हैं जहां आपको उनकी आवश्यकता होती है.

कैलेंडर दृश्य बदलने के लिए, **मेनू** ≡ स्पर्श करें और **शेड्यूल**, **दिन**, **सप्ताह**, या **माह** चुनें.


ईवेंट विवरण पढ़ने या संपादित करने के लिए, किसी भी कैलेंडर दृश्य से ईवेंट को स्पर्श करें.

किसी ईवेंट में आमंत्रित प्रत्येक व्यक्ति को ईमेल करने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं:

- किसी भी समय कैलेंडर ऐप से ईवेंट को खोलें और **ईमेल अतिथि** स्पर्श करें. यहां आपके पास तेज़ प्रतिसादों की सूची है या आप अपना स्वयं का प्रतिसाद भी लिख सकते हैं.
- मीटिंग प्रारंभ होने के ठीक पहले ईवेंट की सूचना आगे पर, सूचना शेड को नीचे की ओर स्वाइप करें. उसके बाद आवश्यकता होने पर नोटिफिकेशन को विस्तृत करने के लिए एक अंगुली से स्वाइप करें और **ईमेल अतिथि** स्पर्श करें.

अधिक जानकारी के लिए, कैलेंडर सहायता पर जाएं.

FM रेडियो

यदि आपके पास Android One फ़ोन है, तो आप FM रेडियो ऐप  के द्वारा FM रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं या उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं. FM रेडियो:


1. अपने उपकरण में ईयरफ़ोन प्लग करें. वे रेडियो एंटेना की तरह काम करते हैं.
2. FM रेडियो ऐप खोलें.
3. रेडियो, स्क्रीन पर स्टेशन चलाना प्रारंभ कर देगा.

जब आप किसी अन्य ऐप्स का उपयोग करना चाहते हैं या यदि आपकी स्क्रीन निष्क्रिय हो जाती है तब भी आप होम बटन को स्पर्श करके रेडियो सुनना जारी रख सकते हैं. जब तक आप बंद नहीं करते, तब तक रेडियो चलता रहेगा.

अधिक जानकारी के लिए, FM रेडियो स्टेशन सुनें और रिकॉर्ड करें पर जाएं.

7

सरल उपयोग

सरल उपयोग विकल्पों का उपयोग करने के लिए, **सेटिंग**  > **सिस्टम** > **सरल उपयोग** खोलें.

इन विकल्पों को सेट करने के बारे में विस्तृत जानकारी देखने के लिए, Android सरल उपयोग पर जाएं. यहां दृष्टिबाधित लोगों के लिए कुछ विकल्प दिए गए हैं:

TalkBack, Google का ऐसा स्क्रीन रीडर है जो आपके Android फ़ोन और टैबलेट के साथ आता है. यह ईवेंट जैसे नोटिफिकेशन और आपकी क्रियाओं जैसे किसी ऐप को खोलना, के परिणाम को बताने के लिए बोले जाने वाले फ़ीडबैक का उपयोग करती है.

TalkBack के चालू होने पर, आपको कुछ चुनने के लिए दो बार टैप करना होगा.


TalkBack सेटिंग आपको TalkBack स्पीच, फ़ीडबैक और स्पर्श एक्सप्लोरेशन (स्पर्श द्वारा एक्सप्लोर करें) की प्रकृति को नियंत्रित करने देती है.

कैप्शन: आप अपने डिवाइस के लिए कैप्शन चालू कर सकते हैं और भाषा, लेख का आकार और शैली निर्दिष्ट कर सकते हैं. कुछ ऐप्स के लिए, आपको ऐप के अंदर के कैप्शन को चालू करना होगा.

स्पर्श द्वारा एक्सप्लोर करें एक ऐसी सिस्टम सुविधा है जो TalkBack के साथ कार्य करती है, जिससे आप अपने डिवाइस की स्क्रीन स्पर्श कर पाते हैं और आपकी अंगुली के नीचे जो भी है उसे बोले जाने वाले फ़ीडबैक के द्वारा सुन पाते हैं. यह कम दृष्टि वाले और दृष्टिहीन लोगों के लिए सहायक है. TalkBack सेटिंग में, आप स्पर्श द्वारा एक्सप्लोर करें की सेटिंग को बदल सकते हैं, जैसे हावभाव को प्रबंधित करना और सूचियां कैसे स्कॉल की जाती हैं.

सिस्टम और प्रदर्शन विकल्पों में लेख का आकार बढ़ाना, लेख बोले जाने की गति बदलना, रंग पलटना, रंग सुधार करना और उच्च चमक वाला लेख शामिल हैं.

आप अपने हिसाब से स्क्रीन बड़ी करना भी आजमा सकते हैं, जिससे आप ज़ूम इन और आउट कर सकते हैं, साथ ही साथ अस्थायी रूप से वर्ध आपकी अंगुली के नीचे जो भी है

उसका आवर्धन करने देता है. अपने हिसाब से स्क्रीन बड़ी करना आजमाने के लिए,
सेटिंग  > सिस्टम > सरल उपयोग > अपने हिसाब से स्क्रीन बड़ा करना पर
जाएं.

घड़ियों, टीवी और कारों में उपलब्ध Android

Android Wear

Android Wear की घड़ियां आपको एक नज़र में उपयोगी जानकारी देकर वर्तमान बने रहने और कनेक्ट बने रहने में आपकी सहायता करती हैं। अपनी घड़ी का उपयोग करके अपना कैलेंडर जांचें या तुरंत प्रतिसाद दें, भले ही आप अपना फ़ोन छोड़ आए हों।

Google नाओ की ओर से ट्रैफ़िक की जानकारी, अपनी उड़ान की स्थिति या मौसम के पूर्वानुमानों सहित अपने दिनभर के हालचाल पर उपयोगी टिप्स प्राप्त करें। फ़िटनेस लक्ष्य सेट करें और अपनी प्रगति के दैनिक और साप्ताहिक दृश्य प्राप्त करें। Google Play में उपलब्ध घड़ी की हज़ारों स्क्रीन और ऐप्स आपकी घड़ी के रंगरूप और सुविधाओं को कस्टमाइज़ करने में आपकी सहायता करते हैं। आप Asus, Huawei, LG, Motorola, Samsung, Sony और अन्य निर्माताओं की ओर से विविध प्रकार की घड़ियां और बैंड में चुन सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, Android.com/Wear पर जाएं।

Android TV

Nexus Player (वर्तमान में Google Play पर उपलब्ध) और 2015 में बाज़ार में आ रहे अन्य सेट-टॉप बॉक्स और टीवी आपको Android TV का उपयोग करके Google Play - फिल्में और टीवी सामग्री देखने देते हैं। Android टीवी रिमोट कंट्रोल ऐप आपके फ़ोन या टैबलेट से आपको टीवी का पूरा नियंत्रण देकर वॉइस खोज का और ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड का समर्थन करता है। आप Google Play, YouTube और आपके ऐप्स से वैयक्तिकृत सामग्री अनुशंसाएं भी ब्राउज़ कर सकते हैं। या वॉइस खोज का उपयोग अपनी चीज़ों को तेज़ी से खोजने के लिए करें: “बैक टु द फ़्यूचर,” “ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज़ फ़ॉर्म 2014” या “ब्राड पिट मूवीज़,” बोलें और Android टीवी को अपना काम करने

दें.

अधिक जानकारी के लिए, [Android.com/TV](https://android.com/TV) पर जाएं.

Android Auto

Android Auto आपको अपने फ़ोन के मार्गदर्शक, संगीत, संपर्कों और संदेशों को किसी संगत कार की अंतर्निहित स्क्रीन पर दिखाने देता है. किसी सरलीकृत इंटरफ़ेस के साथ, अंतर्निहित स्टीयरिंग व्हील नियंत्रण और गई वॉइस क्रियाओं के साथ, इसे व्यवधानों को न्यूनतम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आप सड़क पर ध्यान केंद्रित रख सकें. Google मानचित्र, लाइव ट्रैफ़िक जानकारी, लेन मार्गदर्शन त्यादि के माध्यम से निःशुल्क वॉइस निर्देशित नेविगेशन इत्यादि के साथ अपने गंतव्य पर पहुंचना आसान है.

अधिक जानकारी के लिए, [Android.com/Auto](https://android.com/Auto) पर जाएं.